



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 4] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 22--जनवरी 28, 2005 (माघ 2 1926)
No. 4] NEW DELHI, SATURDAY JANUARY 22--JANUARY 28, 2005 (MAGHA 2, 1926)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग 1—खण्ड 2 [PART I—SECTION 2]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से संबंधित अधिसूचनाएं
[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

प्रधानमंत्री कार्यालय

नई दिल्ली-110011, दिनांक 5 जनवरी 2005

सं० ए-22012/1/2004-पीएमए—केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति की अवधि पूरा होने के परिणामस्वरूप, श्री छार सिंह, आई०ए०एस० (हरियाणा : 80) ने 5 जनवरी 2005 के अपर हल से प्रधानमंत्री कार्यालय में संयुक्त सचिव क पद का कार्यभार छोड़ दिया है।

पी० के० राय, अवर सचिव

राज्य सभा सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 6 जनवरी 2005

सं० अर एस०/3(v)/2004/1-कामिक—राज्य सभा के सभापति ने राज्य सभा सचिवालय में मुख्य संसदीय सचिव श्री गोविंद लाल को 5 जनवरी 2005 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक इस सचिवालय में प्रधान मुख्य संसदीय

1-422 GU/2004

नृत्त लेखक के रूप में स्थापनापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया है।

प्र० रं० गुहाराय, निदेशक

नई दिल्ली, दिनांक 7 जनवरी 2005

सं० आर० एस०/6(iv)/2004/2-कामिक—श्रीमति प्रोमिता थुसु को सरकारी आवासनों संबंधी समिति के अध्यक्ष के वैयक्तिक स्टार में 10000-325-15200/- रुपये के वेतनमान में 12 मार्च, 2004 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक राज्य सभा सचिवालय में निदेशक सचिव के रूप में अस्थायी रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया है।

2. श्रीमती गोविता थुसु को नियुक्ति राज्य सभा में सरकारी आवासनों संबंधी समिति के वर्तमान अध्यक्ष के विधायक हैं और वह उनके कार्यभार को समाप्ति के साथ ही समाप्त हो जायेंगे।

बंजुला जी० राजन, अवर सचिव

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 23 दिसम्बर 2004

सं० पी० एफ० 2510(3)/जीएन-5314/2004/एएन-1—
निम्नलिखित स्थापित कार्यकारी/विधायी/समिति/प्रोटोकॉल
अधिकारियों को उनके नामों के सामने लिखी तारीखों से
कार्यकारी/विधायी/समिति/प्रोटोकॉल अधिकारी के ग्रेड में
स्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है।

क्र० सं०	नाम	तारीख
1.	श्री सत्य प्रकाश	10-10-2004
2.	श्री एस० अर० मिश्रा	15-9-2004
3.	डा० (श्रीमती) सागरिका दास	26-9-2004
4.	श्रीमती रीना एम० जैकब	15-9-2004
5.	श्री सी० अल्यणसुन्दरम	15-9-2004

2. यह अधिसूचना दिनांक 29-9-2003 को अधिसूचना
सं० जी० एन० 5020 दिनांक 3-10-2003 की अधिसूचना
सं० जी० एन० 5026 तथा दिनांक 15-10-2003 की अधि-
सूचना सं० जी० एन० 5036 के क्रम में है।

पी० श्रीधरन, निदेशक

दिनांक 27 दिसम्बर 2004

सं० पी० एफ० 1356(3)/एएन-1/जीएन-5320/
2004—निम्नलिखित व्यक्तिगत कार्यकारी/विधायी/समिति
प्रोटोकॉल अधिकारी के ग्रेड में परामर्श और सहायक के
रूप से पूरी कर ला है :—

1. श्रीमती कमलेश पाहवा
2. श्री बी० पी० गुप्ता
3. श्री अर० के० भटनगर
4. श्री यशपाल धवन
5. श्री आर० सी० भारद्वाज
6. श्रीमती पूनम शर्मा
7. श्रीमती विरग लता नंदवानी
8. श्री बी० के० गुप्ता
9. श्री टी० एच० राव
10. श्रीमती कमलेश माटा
11. श्री अरविंद शर्मा
12. श्री बी० विसा
13. श्री एस० के० मिश्रा
14. श्री रमेश लाल
15. श्रीमती माया लिमी

2. यह अधिसूचना दिनांक 18-9-2002 की अधिसूचना
सं० जी० एन० 4817 दिनांक 18-9-2002 को अधिसूचना
सं० जी० एन० 4818 दिनांक 17-10-2002 को अधि-
सूचना सं० जी० एन० 4825 के क्रम में है।

आनंद बी० कुलकर्णी, संयुक्त सचिव

सं० पी० एफ० 3823(3)/एएन-1/जीएन-5319/-
2004—कार्यकारी/विधायी/समिति/प्रोटोकॉल अधिकारी के पद से
दिए गए व्यक्तियों को सीनियर और विज्ञापित के परिणामस्वरूप
श्री एम० सी० सुरेस को 27 दिसम्बर, 2004 की तारीख से
इस सचिवालय के कार्यकारी/विधायी/समिति/प्रोटोकॉल
अधिकारी के ग्रेड में परामर्श और सहायक के रूप में
नियुक्त किया जाता है।

आनंद बी० कुलकर्णी, संयुक्त सचिव

दिनांक 31 दिसम्बर, 2004

सं० पी० एफ० 1262(3)/एएन-1/जीएन-5327/2004—
अध्यक्ष महोदय 22400-24500 रु० के वेतनमान में
अवर सचिव के पद पर आकर श्री पी० डी० टी० अवर को
26000 रु० (नियत) के वेतनमान में लीट सभा सचिवालय
के सचिव के पद पर 1 जनवरी, 2005 से आने आदेशों तक
सहर्ष नियुक्त करते हैं।

आनंद बी० कुलकर्णी, अवर सचिव

सं० पी० एफ० 3422(3)/जीएन-5328/एएन-1/2004—
अध्यक्ष महोदय, 4-12-2004 को हुई प्रतियोगी विनोदिय
परीक्षा (पदीयता कोश) के आधार पर सहायक सहायक
के पद के लिए चयन होने के परिणामस्वरूप 7450-
11500 रु० के वेतनमान में कार्यकारी निमित्तों के अनु-
वादकों को 8000-275-13500 रु० के वेतनमान में
सहायक सहायक के ग्रेड में स्थापित आकर पर 30 दिसम्बर
2004 से अगले आदेशों तक सहर्ष नियुक्त करते हैं :—

1. श्री शिवजी श्रीवास्तव
2. श्री उदय शरण
3. श्री नरिंदा कुमार

2. वे 30 दिसम्बर 2004 से 29 दिसम्बर 2006 तक
दो वर्ष की अवधि के लिए सहायक सहायक के ग्रेड में
परिवीक्ष पर रहेंगे।

3. उनकी सहायक सहायक के ग्रेड में परंपरा पर 20 दिसम्बर
2003 के आर० एण्ड सी० एस० आदेश
सं० पीडी-1076/2003 के अनुसार विनिय-
मित की जाएगी।

आनंद बी० कुलकर्णी, संयुक्त सचिव

सं० पी०एफ० 1479(3)/जीएन-5329/एएन-1/2004—
दिनांक 25 फरवरी 1973 क अर० एण्ड सी० एस० अर्डर
सं० पीजीएफ-104/73 क अर्थात् अंगीकृत और समय-समय
पर यथासंशोधित सी०सी०एस० (पेंशन) नियम 1972 के
नियम 48 के अधीन सञ्चय प्राधिकारी ने 8000-275-
13500/- रु० के वेतनमान में कार्यरत श्री देवी प्रसाद,
मुद्रण प्रबंधक को 31 दिसम्बर 2004 के अर्थात् से स्टांन्डिक
सेवा निवृत्ति लेने की अनुमति दिए जाने हेतु 28 अक्टूबर
2004 के उनके अनुरोध को स्वीकार कर दिया है।

2. तदनुसार, श्री देवी प्रसाद 31 दिसम्बर 2004 के
अर्थात् से सेवा निवृत्त हो गए हैं।

आनन्द बी० कुलकर्णी, संयुक्त सचिव

दिनांक 3 जनवरी 2005

एफ सं० 15/10/2003/जी एन-5330/ए एन-1—अध्यक्ष
महोदय, लोक सभा सचिवालय में क्रमशः 8-10 फरवरी,
2002 तथा 27-28 दिसम्बर, 2002 को हुई लिखित
परीक्षा और यंत्रित सञ्चयकार क आदेश पर कार्यकारी/
विधायी/समिति/प्रोटोकॉल अधिकारी के पद के लिए चयन
होने के परिणामस्वरूप श्री गुलाब चन्द प्रसाद की 8000-
275-13500 रु० के वेतनमान में कार्यकारी/विधायी/
समिति/प्रोटोकॉल अधिकारी के पद पर स्थानान्तरण
आधार पर 31 दिसम्बर, 2004 के पूर्वानु से अगले आदेशों
तक सहर्ष नियुक्त करते हैं।

2. वह कार्यकारी/विधायी/समिति/प्रोटोकॉल अधिकारी के
ग्रेड में 31 दिसम्बर, 2004 से 30 दिसम्बर, 2005 तक एक
वर्ष का अवधि के लिए परीक्षा पर रहेंगे।

3. उनकी कार्यकारी/विधायी/समिति/प्रोटोकॉल अधिकारी
के ग्रेड में परस्पर वरिष्ठता 20 दिसम्बर, 2003 के अर०
एण्ड सी० एस० आदेश संख्या पीडी-1076/ 2003 के
अनुसार विनियमित की जायेगी।

आनन्द बी० कुलकर्णी, संयुक्त सचिव

दिनांक 4 जनवरी 2005

सं० 24/21/जी एन-5331/2004/ए एन-1— दिनांक
20-12-2003 के अर० एंड सी० एस० आदेश संख्या पी डी ए-
1076/2003 के विनियमों के अनुसार सहायक निदेशक के
ग्रेड में निम्नलिखित व्यक्तियों को परस्पर वरिष्ठता नीचे दिए
गए क्रम में निर्धारित की जाती है :—

1. श्री पवन कुमार
2. श्री पी० सी० त्रिपाठी
3. श्री ओ० पी० शोकीन
4. श्री क्षेत्रबसी जेना
5. श्री देश राज शेर
6. श्री जदू मणि बैसाख

7. डा० रम रज राय
8. श्री एन० के० पण्डे
9. श्री अशोक सिंह साजवान
10. श्री शिल्पी चटर्जी
11. श्री ए० के० शाह
12. श्री व० ई० एम० काण्डवाल
13. श्री जे० बी० जी० रेड्डी
14. श्री एम० के० मधुसूदन
15. श्री बी० के० मोहन
16. श्री विजय कुमार
17. श्री अना कुमार
18. श्री एच० एम० भट्ट
19. श्री आर० पी० नोटियाल
20. श्रीमती रीटा जेतवानी
21. श्रीमती रत्ना भगवानी
22. श्री जगदीश प्रसाद
23. श्री खुशी राम
24. श्री ओ० पी० शर्मा
25. श्री एस० के० सक्सेना
26. श्रीमती राजू चौधरी
27. श्री बी० पी० गोयल
28. श्रीमती नर्गिस गुलाटी
29. श्री नारायण दास
30. श्री रवि चन्द जैन
31. श्री अर० डी० सिन्हा
32. श्रीमती एस० के० जोश

आनन्द बी० कुलकर्णी, संयुक्त सचिव

मंत्रिमंडल सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 4 जनवरी 2005

सं० ए 38012/2/2004-प्रशा० 1—निवृत्ति आयु
प्राप्त कर लेने पर, श्री जो० क० चन्दा, निदेशक, कन्द्रीय
सचिवालय सेवा, मंत्रिमंडल सचिवालय 31 दिसम्बर 2004
के अर्थात् से सरकारी सेवा से निवृत्त हो गए।

सुनील मिश्र, उप सचिव

योजना आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 30 दिसम्बर 2004

सं० एफ० 6 (1855)/2002-प्रशासन-1—महाराष्ट्र
शहर एवं औद्योगिक विकास निगम लि० (सी०आई०डी०सी०),
मुंबई में मुख्य अर्थशास्त्रा के पद पर विदेश सेवा शर्तों पर
प्रतिनियुक्त आधार पर नियुक्त के लिए उनका चयन हो

जाने के परिणामस्वरूप, आई. ई. एस. के एन० एफ० एस० जी० अधिकारी तथा योजना आयोग में निदेशक, श्री एम० एन० लोथे को सं० आई० डी० सी० ऑफ महासिद्ध लि०, मुंबई में कार्यभार संभालने हेतु योजना आयोग से दिनांक 30-12-2004 (अपराह्न) से कार्यभार सौंपा किया जाता है।

के० के० छाबड़ा, अवर सचिव

स० ए-12025/10/2002-प्रशा०-II--राष्ट्रपति, डा० एस० के० गुप्ता, सहायक प्रबंधक, राष्ट्रीय बीज निगम लि० को योजना आयोग में 10,000-325-15,200/- रुपए के वेतनमान में प्रतिनियुक्ति आधार पर वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (वैज्ञानिक अनुसंधान) के रूप में दिनांक 30-12-2004 (पूर्वाह्न) से 3 वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, नियुक्त करा है।

के० के० छाबड़ा, अवर सचिव

स० ए-12025/2/2004-प्रशा०-I—योजना आयोग की दिनांक 19 अक्टूबर, 2004 की सततव्यवस्था अधिवृत्तों के अनुक्रम में, श्रीमती रेणु लाल, वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी आई एमआर की वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी के रूप में तदर्थ प्रतिनियुक्ति को अवधि दिनांक 31-3-2005 तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, प्रदान किया है।

के० के० छाबड़ा, अवर सचिव

दिनांक 31 दिसम्बर 2004

स० प्रशा० II(602)/66-बंड-II--अतिरिक्त की आयु प्राप्ति होने पर योजना आयोग में श्री रेणु लाल, अनुसंधान अधिकारी (तदर्थ) दिनांक 31-12-2004 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो जाते हैं, जिसका परिणामस्वरूप उन्होंने उक्त तारीख से कार्यभार त्याग दिया है।

के० के० छाबड़ा, अवर सचिव

स० ए-12025/4/97 प्रशा० II--योजना आयोग में अनुसंधान अधिकारी के रूप में तदर्थ प्रतिनियुक्ति की अवधि समाप्त होने पर सर्वश्री बी० एस० राठीर और कैलाश चन्द को दिनांक 31-12-2004 (अपराह्न) से अधीनस्थ सांख्यिकी सेवा (एस एस एस) के सांख्यिकी अन्वेषक ग्रेड-I के 7450-225-11500 रु० के वेतनमान में उक्त संबंधी पद पर प्रत्यावर्तित किया जाता है।

योजना आयोग में सांख्यिकी अधिकारी (वरिष्ठ ग्रेड) के रूप में एस एस एस के उल्लिखित पद को पुनः पदनाशित करते हुए उनके दिनांक 15/12/2004 के आदेशों के अनुसार

ए-26011/18/97-प्रशा०-II के अनुसार सर्वश्री बी० एस० राठीर और कैलाश चन्द को योजना आयोग में सांख्यिकी अधिकारी (वरिष्ठ ग्रेड) के रूप में 7450-225-11500/- रुपए के वेतनमान में दिनांक 1/1/2005 से अगले आदेशों तक नियुक्त किया जाता है।

के० के० छाबड़ा, अवर सचिव

दिनांक 5 जनवरी 2005

स० 19(790)/2000-प्रशा०-II-- 12वें वित्त आयोग का कार्य तल समाप्त होने के परिणामस्वरूप, श्री राजीव मिश्रा, आई ई एस के ग्रेड-III अधिकारी, जो 12वें वित्त आयोग में प्रतिनियुक्ति पर थे, ने दिनांक 31-12-2004 (अपराह्न) से योजना आयोग में 10,000-325-15,200 रु० के वेतनमान में पुनः वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

के० के० छाबड़ा, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 3 जनवरी, 2005

स० ए-43011/1/2005-प्रशा०-1--राष्ट्रमंडल सचिवालय के दिनांक 30-12-2004 के यू० पी० सं० 1/4/8/2004-सीए-IV के अनुसार में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद् (ईएसओ) का गठन और विचारार्थ विषय निम्नलिखित के अनुसार है :

संगठन :—

- (i) डा० सी० रंगराजन केबिनेट मंत्री के रैंक में पूर्णकालिक अध्यक्ष
- (ii) डा० एम० गोविन्दाराव राज्य मंत्री के रैंक में अंशकालिक सदस्य
- (iii) डा० सुरेश तेंडुलकर —वही—
- (iv) डा० जी० एस० चड्ढा —वही—
- (v) डा० सीमित्र चौधरी —वही—

विचारार्थ विषय

- (i) प्रधानमंत्री द्वारा विचारार्थ भेजे गए किसी भी मुद्दे, आर्थिक अथवा अन्य का विश्लेषण करना तथा उन्हें तत्संबंधी सलाह देना।
- (ii) वृहद् आर्थिक (मैक्रोइकोनॉमिक) महत्व के मुद्दों का समाधान करना तथा तत्संबंधी विचार प्रधानमंत्री के समक्ष प्रस्तुत करना। ये विचार या तो स्वरेखा से अथवा प्रधानमंत्री द्वारा निर्देशित अथवा किसी अन्य के भी हो सकते हैं।
- (iii) प्रधानमंत्री को समय-समय पर मैक्रो इकोनॉमिक व आर्थिक नीतियों पर पड़ने वाले प्रभावों तथा मुद्दों पर लिखित प्रस्तुत करना।

(iv) प्रधानमंत्री की इच्छानुसार समय-समय पर दिए जाने वाले किसी अन्य कार्य पर कार्यवाई करता।

2. ईएसी को उनके कार्यों में प्रशासन और हेतु परामर्शदाता एवं उच्चस्तरीय अनुसंधान स्टाफ नियुक्त करने का विकल्प प्राप्त होगा।

3. ईएसी के प्रशासनिक, उपस्करिय, योजना एवं बजटीय कार्यों हेतु योजना आयोग नोडल एजेंसी होगा। योजना आयोग कार्यालय के लिए अपेक्षित जगह उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक प्रबंध भी करेगा।

4. ईएसी के अध्यक्ष और सचिव को शहरी विकास विभाग के सामान्य पूल से सरकारी आवास उपलब्ध कराया जाएगा।

राजीव रत्न शाह, सचिव

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 6 जनवरी 2005

सं० ए-32014/07/2002-प्रशा०-1—कर्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं० 5/15/2003-सी० एस० 2 दिनांक 23-12-2004 के अनुसरण में, राष्ट्रपति, गृह मंत्रालय में कार्यरत निम्नलिखित वरिष्ठ प्रधान निजी सचिवों की तदर्थ नियुक्ति को दिनांक 30-06-2005 तक की अवधि के लिए अथवा नियमित वरिष्ठ प्रधान निजी सचिवों के उपलब्ध होने तक अथवा आगे आदेशों के होने तक इनमें से जो भी पहले हो, तक के लिये निरंतर करते हैं। वरिष्ठ प्रधान निजी सचिवों के पद पूर्ण रूपेण तदर्थ प्रकृति के हैं इसलिए उनको इन पदों पर अतिरिक्त काल तक निरंतर बने रहने हेतु अथवा केन्द्रीय सचिवालय आगुलित सेवा के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव ग्रेड में वरिष्ठता के लिये कोई दावा पेश करने का अधिकार नहीं प्रदान करते हैं :-

क्र० सं० अधिकारी का नाम

(सर्वश्री)

1. के० के० उपाध्याय
2. के० एल० बजाज
3. ब्रज मोहन
4. पी० ताहिलियानी
5. एम० एम० शर्मा

एस० के० भटनागर, अवर सचिव

सं० ए-32014/03/2002-प्रशा० 1—कर्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं० 5/16/2003-सी० एस० 2 दिनांक 23-12-2004 के अनुसरण में, राष्ट्रपति, गृह मंत्रालय में, कार्यरत निम्नलिखित प्रधान निजी सचिवों की तदर्थ नियुक्ति को दिनांक 30-06-2005 तक की अवधि के लिए अथवा नियमित अवधियों के उपलब्ध होने तक अथवा अगले आदेशों के होने तक, इनमें से जो भी

पहले हो, तक के लिए निरंतर करते हैं। प्रधान निजी सचिवों के पद पूर्ण रूपेण तदर्थ प्रकृति के हैं इसलिए उनको इन पदों पर अतिरिक्त काल तक निरंतर बने रहने हेतु अथवा केन्द्रीय सचिवालय आगुलित सेवा के प्रधान निजी सचिव ग्रेड में वरिष्ठता के लिये कोई दावा पेश करने का अधिकार नहीं प्रदान करते हैं :-

क्र० सं० अधिकारी का नाम

(सर्वश्री)

1. वी० के० नारंग
2. एच० सी० नारंग
3. पी० दिवाकरन
4. श्रीमती अनीता चक्रवर्ती
8. वी० मित्रन
9. टी० ए० बालाकृष्णन
10. वी० पी० महाजन
11. आर० डी० शर्मा
12. वी० नागेश्वर राव

एस० के० भटनागर, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 7 जनवरी 2005

सं० 14031/1/2003-यू० टी० एस० I—ग्रहणाचल प्रदेश-गोवा-मिजोरम-संव राज्य क्षेत्र के संयुक्त संवर्ग के निम्नलिखित भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अधिवर्षिता को आयु प्राप्त होने पर सेवा से 31 दिसम्बर, 2004 अवराल्ल को सेवानिवृत्त हो गए हैं :-

1. श्रीमती विनता बिहार (एजोएमयू : 84)
2. श्री वाई डी० बंटा (एजोएमयू : 85)

के० के० कालरा, अवर सचिव

सं० 14031/I/2003-यू० टी० एस०—ग्रहणाचल प्रदेश-गोवा-मिजोरम-संव राज्य क्षेत्र के संयुक्त संवर्ग के 1991 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी श्री थान्हा-बाला अधिवर्षिता को आयु प्राप्त होने पर सेवा से 31 दिसम्बर, 2004 अवराल्ल से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

के० के० कालरा, अवर सचिव

नई दिल्ली-110001, दिनांक 07 जनवरी 2005

सं० I-12015/01/2002-आई० पी० एस० IV—भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) नियम 1954 के नियम 5 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, सिविल सेवा परीक्षा, 2003 के परिणामों

के आधार पर, भारतीय पुलिस सेवा की आवंटित उम्मीदवारों को निम्नलिखित संवर्ग आवंटित करती है:-

क्र० सं०	रैंक सं०	उम्मीदवार का नाम	आवंटित संवर्ग
1	2	3	4
		सर्वश्री	
1.	72	तरुण जोशी	आंध्र प्रदेश
2.	104	नवीन गुलाटी	वही
3.	211	कान्ती रणा टाटा	वही
4.	281	श्रवण कुमार मीणा	वही
5.	75	वीनू बंसल	असम-मेघालय
6.	107	रवनंत सिंह	वही
7.	140	आनंद प्रकाश तिवारी	वही
8.	301	अनुराग कुमार	वही
9.	183	पी० कल्याणकरण	ए. जी. एम. यू.
10.	269	ज्ञान संवेंदा एन	वही
11.	173	विमल कुमार	बिहार
12.	248	सुन्कु श्रीविश्वसू	वही
13.	84	सूश्री नेहा	छत्तीसगढ़
14.	109	अमिशेक पाठक	वही
15.	142	अर्पिता कुमार गर्ग	वही
16.	207	अजय कुमार वादव	वही
17.	307	वद्री नारायण मीणा	वही
18.	85	सुश्री गंगादीप गंभीर	गुजरात
19.	112	संदीप सिंह	वही
20.	202	पवन कुमार सेन	वही
21.	323	परमेश्वर गौतम कुमार मणिलाल	वही
22.	87	सतेन्दर कुमार गुप्ता	हरियाणा
23.	213	सतीश बालन बी	वही
24.	90	अग्निहोत्री सोनल मोहन	हिमाचल प्रदेश
25.	92	पाटिल रवीन्द्रनाथ प्रभाकर	जम्मू एवं कश्मीर
26.	113	अतुल कुमार गोयल	वही
27.	214	बानो प्रियंका प्रकाश	वही
28.	255	सचिन वादशाह	वही
29.	313	भीम सेन टूटी	वही
30.	67	प्रभात कुमार	झारखण्ड
31.	221	होंकार अमोल वीनूकांत	वही
32.	128	सुश्री सुविता गुप्ता	कर्नाटक
33.	131	संदीप पाटील	वही
34.	133	हर्षा पी० एस०	वही

1	2	3	4
35.	226	ल.भू.राम	कर्नाटक
36.	319	विकास कुमार विकास	वही
37.	74	अनुरा कुशविला जॉन	केरल
38.	114	विक्रमजीत सिंह	वही
39.	227	पी० प्रकाश	वही
40.	266	त्रिलोक चन्द्र के० बी०	वही
41.	322	के० सेतु रमन	वही
42.	94	सजय कुमार	मध्य प्रदेश
43.	206	गौरव राजपूत	वही
44.	52	कार्तिक संदीप प्रकाश	महाराष्ट्र
45.	76	पडवाल प्रवीण कुमार नाबाजी	वही
46.	132	निशोय मिश्रा	वही
47.	235	जय कुमार एस०	वही
48.	267	सत्य नारायण	वही
49.	321	लक्ष्मी चन्द	वही
50.	95	राजत कुमार	मणिपुर-त्रिपुरा
51.	116	योगेश्वर ठाठक	वही
52.	241	दीपक कुमार	वही
53.	334	शेमशिंग तपासांगवा	वही
54.	101	विकास कुमार	नागालैंड
55.	118	इरजान वली	वही
56.	135	सुश्री नरेश कुश	वही
57.	143	सुश्री शिवा शर्मा	वही
58.	342	लोमा सुने; जनोर	वही
59.	70	बंछा विधि पाणी	उड़ीसा
60.	119	अशोक कुमार सिंह	वही
61.	136	दीपक कुमार	वही
62.	192	सत्यव्रत भोई	वही
63.	339	विजयलाल सिंह	वही
64.	355	बाबू लाल मोगा	पंजाब
65.	106	गौरव श्रीवास्तव	राजस्थान
66.	137	शरत केशव ज	वही
67.	243	चाहने जयंत कुमार	वही
68.	268	सुश्री एस० परिमला	वही
69.	356	सुश्री के० बी० वंदना	वही
70.	357	ओम प्रकाश	वही
71.	102	सुश्री लविका ऋषि	सिक्किम
72.	247	दिगन्त बराह	वही
73.	86	के० ए० सैय्यन बेजत	तमिलनाडु

1	2	3	4
74.	124	असरा गर्ग	तमिलनाडु
75.	184	अविनश कुमार	-वही-
76.	354	ए० जी० बाबू	-वही-
77.	361	विजय कुमार बिरदी	-वही-
78.	57	केवल खुराना	उत्तरांचल
79.	63	प्रीतिन्दर सिंह	उत्तर प्रदेश
80.	185	लव कुमार	-वही-
81.	299	चन्द्र प्रकाश	-वही-
82.	360	के० इजिलरासाने	-वही-
83.	58	संजय जैन	पश्चिम बंगाल
84.	125	प्रवीण कुमार त्रिपाठी	-वही-
85.	139	संजय साची रमण मिश्रा	-वही-
86.	191	सुनील कुमार चौधरी	-वही-
87.	245	श्रीधर केश मण्डा	-वही-
88.	270	पी० के० अमोल बाबू	-वही-

जे० बी० कौशिक, डेस्क अधिकारी

दिनांक 11 जनवरी 2005

सं० आई-18011/14/2004-आइपीएस-चार-भार-भारतीय पुलिस सेवा (परिचीक्षा) नियम, 1954 के नियम-3क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, श्रीमती प्रिया डुवे, आई०पी०एस (अ.र.व.ड. : 1998) को 20-9-2001 से भारतीय पुलिस सेवा में स्वीकृति करते हैं।

जे० बी० कौशिक, डेस्क अधिकारी

राजभाषा विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 10 जनवरी 2005

शुद्ध पत्र

सं० 12013/3/2002-रा०भा० (का०-1)--राजभाषा विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 29-9-2003 के अनुसरण में गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय में अनुसंधान अधिकारी के पद पर नियुक्ति आधार पर श्रीमती सुष्मिता भट्टाचार्य की नियुक्ति की तिथि 27-7-2004 (पूर्वाह्न) के स्थान पर 9-8-2004 (पूर्वाह्न) पढ़ी जाए।

श्रीमती सरोज जंतिना, अवर सचिव

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 5 जनवरी 2005

फा० सं० 2/2/2005-प्रशा०--राष्ट्रपति, श्री सुरेन्द्र कुमार, भा०व०से० (एम०टी० : 85) को दिनांक 5 जनवरी

2005 पूर्वाह्न से उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय में रु० 16,400-20,000/- के वेतनमान अर्थात् भा०व०से० के ग्रेड में जी वेतनमान के से रहे थे, में कन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर निदेशक के रूप में सर्वप्रथम नियुक्त करते हैं।

सज्जद मित्रा, निदेशक (प्रशासन)

कार्मिक, लोक शिवालय तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण-विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 6 जनवरी 2005

सं० 20/जी/1151-प्रशासन-I--राष्ट्रपति, श्री अमर रामानुजम, भारतीय प्रशासनिक सेवा (मध्य प्रदेश : 79) को 31 दिसम्बर, 2004 के आदेश से, उनकी कन्द्रीय प्रतिनियुक्ति को शेष अवधि के लिए अर्थात् 09-01-2008 तक अथवा अगले प्रादेशिक, इन्हीं से जो भी पहले हो, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में नियुक्ति सविनय पद पर नियुक्त करते हैं।

वी० के० वेंकटकुट्टी, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 7 जनवरी 2005

सं० 14015/01/2004-अ० भा० से०-(I)-रा०-भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1955 के नियम 7 के उप नियम (3) में विहित प्रावधानों के अनुसार, संघ लोक सेवा आयोग ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के आंध्र प्रदेश संवर्ग में वर्ष, 2003 और 2004 के दौरान रिक्त चल रही केतनः ए०(01)-ए०(0) रिक्ति को भरने के लिए दिनांक 29 अक्टूबर, 2004 को आयोजित बैठक में चयन समिति द्वारा तैयार की गई, आंध्र प्रदेश राज्य की राज्य सिविन सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों के नामों से सुझाव वर्ष, 2003 और 2004 को बना-सूचियों का अनुसंधान कर दिया है :—

वर्ष 2003 की चयन सूची

क्र०सं०	अधिकारी का नाम	जन्म-तिथि
1.	श्री एम० जगन मोहन	4-8-1958

वर्ष 2004 की चयन सूची

1.	श्री ए दिनेश्वर बाबू	19-12-1950
----	----------------------	------------

2. प्रत्येक सूचियों में उल्लिखित अधिकारियों के नामों का शामिल किया जाता, आंध्र प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण के दिनांक 4-11-2003 के आदेश के विरुद्ध भारतीय उच्च न्यायालय के सदन द्वारा 2004 की विशेष अनुमति अपील (सी) सं० 6515-6517 तथा मन्त्री आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के सदन द्वारा रिट याचिका सं० 10694/2004 के निर्णय के अधीन है।

जगन लाल, अवर सचिव

सं० 14015/01/2004-अ०भा०से०-(I)-ख-भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमवली 1955 के विनियम 9 के उप विनियम (1) तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिचीक्षा) नियमवली, 1954 के नियम 3 के साथ पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (सर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 8 के उप नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, आंध्र प्रदेश-राज्य-सिविल सेवा के सदस्य श्री एम० जगदीश और श्री ए० दिनकर बाबू को क्रमशः वर्ष 2003 तथा वर्ष 2004 के संबंध में तत्काल प्रभाव से, अगले आदेशों तक भारतीय प्रशासनिक सेवा में परिचीक्षा पर नियुक्त करते हैं और भारतीय प्रशासनिक सेवा (सर्वग) नियमावली, 1954 के नियम 5 के उप नियम (1) के अनुसार उन्हें आंध्र प्रदेश-सर्वग में आवंटित करते हैं।

2. प्रवर सूचियों में उपर्युक्त अधिकारियों की नियुक्तियां आंध्र प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण के दिनांक 4-11-2003 के आदेश के विरुद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष दायर 2004 की विशेष अनुमति अपील (सी) सं० 6515/6517 तथा माननीय आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष दायर रिट याचिका सं० 10604/2004 के निष्कर्ष के अधीन है।

जगन लाल, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 7 जनवरी 2005

सं० 14013/05, 2003-अ०भा०से०-III-राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिचीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय प्रशासनिक सेवा के हरियाणा राज्य सर्वग के निम्नलिखित सदस्यों की उनके नामों के सामने दर्शाई गई तारीखों से भारतीय प्रशासनिक सेवा में स्थायी करते हैं:-

क्र० सं०	नाम	वैच	स्थायीकरण की तारीख
1	2	3	4
1.	श्री बलराज सिंह	1990	27-12-2000
2.	श्री आनंद शर्मा	1990	-वही-
3.	श्रीमती सावन्ती अहलावत	1990	-वही-
4.	श्री सन्त कुमार	1990	-वही-
5.	श्री एच० पी० चौधरी	1990	-वही-
6.	श्री एस० पी० गुप्ता	1990	-वही-
7.	श्री आर० बी० लंगया	1990	-वही-
8.	श्री एच० एस० मलिक	1991	20-01-2001
9.	श्री फतेह सिंह	1991	27-12-2000
10.	श्री डी० डी० गौतम	1991	27-12-2000

1	2	3	4
11.	श्री एम० पी० बन्सल	1992	28-12-2000
12.	श्री पुष्पराज सिंह	1992	28-12-2000
13.	श्री डी० पी० एम० नयन	1992	28-12-2000
14.	श्री मोहिन्द कुमार	1992	28-12-2000
15.	श्री ए० के० यादव	1993	28-12-2000
16.	श्री टी० के० शर्मा	1993	28-12-2000
17.	श्री बी० एस० मलिक	1993	28-10-2000
18.	श्री बजरान सिंह	1993	28-10-2000

जी० सी० पांडेय, अवर सचिव

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 30 नवम्बर 2004

भारतीय सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सं० ए-39012/5/2004-प्रशा०-II-राष्ट्रपति, श्री प्रशांत कुमार, सहायक आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, बड़ोदरा-II भारतीय सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समूह "क" के द्वारा दिया गया तकनीकी त्यागपत्र सी० सी० एस (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 26(2) के तहत दिनांक 3-9-2004 तक तत्काल प्रभाव से स्वीकार करते हैं ताकि उन्हें भा० प्र० से० में कार्यभार संभालते हेतु सज्जम बनाया जा सके।

के० किपगेन, अवर सचिव

सं० ए-38012/31-2004-प्रशा०-II-राष्ट्रपति, श्री जे० एम० डभोकर, सहायक आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दमन आयुक्तालय भारतीय राजस्व सेवा (सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क) की स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति सी० सी० एस० (पेंशन) नियमावली, के नियम 48 के तहत दिनांक 31-12-2004 तक तत्काल प्रभाव से स्वीकार करते हैं।

के० किपगेन, अवर सचिव

दिनांक 10 दिसम्बर 2004

सं० 2004 की 32(क) सं० ए-38012/28/2004-प्रशा०-II-राष्ट्रपति, श्री आर० एम० फटीडे, उपायुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मुंबई-III, भारतीय राजस्व सेवा (सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क) की स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति सी० सी० एस० (पेंशन) नियमावली, के नियम 48 सह पठित एफ० आर० 56-क के तहत दिनांक 22-12-2004 तक स्वीकार करते हैं।

के० किपगेन, अवर सचिव

दिनांक 13 दिसम्बर 2004

व्यय विभाग

फा० सं० ए-39012/1/2001-प्रशा०-II—राष्ट्रपति, श्री एम० के० शेरवानी, उप निदेशक, राजस्व आसूचना निदेशालय, दिल्ली की सरकारी सेवा से सेवानिवृत्ति दिनांक 13-12-2004 से तत्काल प्रभाव से स्वीकार करते हैं।

के० किपगेन, अवर सचिव

(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 27 दिसम्बर 2004

फा० सं० 2/6/03-सी० वाई०-III—अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर श्री एम० एल० विश्वास, मुख्य नियंत्रण अधिकारी, करेसी नोट प्रेस, नासिक रोड ने दिनांक 30-11-2004 (अपराह्न) से मुख्य नियंत्रण अधिकारी का पद त्याग दिया है। अतः करेसी नोट प्रेस की अधिकारी सूची से उक्त तारीख से उनका नाम काट दिया गया है।

ए० के० खन्ना, अवर सचिव

एफ० सं० 3/10/2004-मुद्रा-II—राष्ट्रपति, दिनांक 20-11-02 को संघ लोक सेवा आयोग में हुई विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक में की गई सिफारिश के अनुसार भारत प्रतिभूति मुद्रणालय/करेसी नोट प्रेस के संयुक्त संवर्ग में वार्थ प्रबंधक (बंधुत) के पद पर कार्यरत श्री एस० बो० राय को 8000-275-13500 रु० (समूह 'क' राजपत्रित) के वेतनमान में सहायक मुख्य अभियन्ता (बंधुत) के पद पर नियुक्त करते हैं। पदोन्नति के बाद श्री राय की वर्तमान दिवसीय पदोन्नति समिति की तिथि अर्थात् 20-11-02 से सहायक मुख्य अभियन्ता (बंधुत) के ग्रेड में निर्धारित की जाएगी। विभागीय पदोन्नति समिति के बनाए पैनल के अनुसार, उनका नाम श्री एस० एस० कोरान्ने से ऊपर रहेगा। तथापि, श्री राय उस तिथि जिससे वह सहायक मुख्य अभियन्ता (बंधुत) का प्रभार वास्तविक रूप में संभालेंगे, से ही वह सहायक मुख्य अभियन्ता (बंधुत) का वेतन प्राप्त करेंगे।

ए० के० खन्ना, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 5 जनवरी 2005

सं० एफ 4-2-2004-मुद्रा-I (एस० पी० एम)—अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर श्री बसन्त लाल शर्मा, सहायक प्रबंधक (यांत्रिक), प्रतिभूति कागज कारखाना, होशंगाबाद ने दिनांक 31-10-2004 (अपराह्न) से सहायक प्रबंधक (यांत्रिक) का पद त्याग दिया है। अतः प्रतिभूति कागज कारखाना की अधिकारी सूचीत से उक्त तारीख से नाम काट दिया गया है।

पी० के० शर्मा, अवर सचिव

2-422 GI/2004

नई दिल्ली, दिनांक 10 फरवरी 2005

सं० ए-11019/8/2004-ई० जी०—राष्ट्रपति, भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा विभाग के श्री नारायण चन्द्र षट्टोपाध्याय को दिनांक 30-07-2004 (पूर्वाह्न) से लेखा परीक्षा के प्रधान निदेशक, केन्द्रीय कोषागार कार्यालय में 10,000-325-15,200/- रुपये के वेतनमान में अगले आदेशों तक कल्याण अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं।

महेन्द्र कुमार, उप सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 10 मार्च 2005

सं० ए-11019/8/2004-ई० जी०—राष्ट्रपति, भारतीय लेखा-परीक्षा तथा लेखा विभाग के श्री राममूर्ति सत्यनथन को दिनांक 26-07-2004 (पूर्वाह्न) से प्रधान महालेखाकार (लेखा-परीक्षा-I) कार्यालय, तमिलनाडु और पाण्डिचेरी, चेन्नई में 10,000-325-15,200/- रुपये के वेतनमान में अगले आदेशों तक कल्याण अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं।

महेन्द्र कुमार, उप सचिव

सं० ए-11019/8/2004-ई० जी०—राष्ट्रपति, भारतीय लेखा-परीक्षा तथा लेखा विभाग के श्री चोलि डेवियत बाबु प्रेम कुमार को दिनांक 30-07-2004 (पूर्वाह्न) से महा-लेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कार्यालय, आंध्र प्रदेश, हैदराबाद में 10,000-325-15,200/- रुपये के वेतनमान में अगले आदेशों तक कल्याण अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं।

महेन्द्र कुमार, उप सचिव

सं० ए-11019/8/2004-ई० जी०—राष्ट्रपति, भारतीय लेखा-परीक्षा तथा लेखा विभाग के श्री किरीट कुमार नरमेराम पारेख को दिनांक 29-07-2004 (पूर्वाह्न) से महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कार्यालय, गुजरात, राजकोट में 10,000-325-15,200/- रुपये के वेतनमान में अगले आदेशों तक कल्याण अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं।

महेन्द्र कुमार, उप सचिव

सं० ए-11019/8/2004-ई० जी०—राष्ट्रपति, भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा विभाग के श्री देवेन्द्र कुमार मायूर को दिनांक 29-7-2004 (पूर्वाह्न) से महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कार्यालय, राजस्थान, जयपुर में 10,000-325-15,200/- रुपये के वेतनमान में अगले आदेशों तक कल्याण अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं।

महेन्द्र कुमार, उप सचिव

कोयला मंत्रालय

दिनांक 14 दिसम्बर 2004

नई दिल्ली, दिनांक 5 जनवरी 2005

सं० ए-12012/4/2004-प्रशा०—राष्ट्रपति, श्री भूपर चटर्जी, सपुत्र श्री बिस्वानथ चटर्जी को कोयला मंत्री (श्री बिबू सोरेन) के फिजो स्टाफ में सहायक फिजो सचिव के पद पर 6500-200-10,500/- रुपये के वेतनमान पर 2 दिसम्बर 2004 (पूर्वाह्न) से सह आर्थिक आधार पर मंत्री जी के कार्यालय तक अथवा जब तक उन्हें इनकी सेवाओं की आवश्यकता हो, इन्हें से जो भी पड़े हो, नियुक्त करते हैं।

पार्वती कौटिया, अवर सचिव

सं० ए-32015/1/98-प्रशा०—इस मंत्रालय की दिनांक 27-9-2004 की सम संख्यात अधिसूचना की निरंतरता में राष्ट्रपति जी, निम्नलिखित ग्रेड 'सी' आशुलिपियों (पी० ए०) को 6500-200-10500 रुपये के वेतनमान में फिजो सचिव के पद पर 1-1-2005 से 31-3-2005 तक अथवा प्राप्ति प्रदेश तक, जो भी पहले हो, पूर्णतया तदर्थ आधार पर नियुक्त करते हैं :—

1. श्रीमती तसनीन टी० कारदार
2. श्रीमती विभा अत्री

उपरोक्त प्रोन्नति एकदम तदर्थ आधार पर की जा रही है और यह तदर्थ प्रोन्नति उन्हें निम्नलिखित प्रोन्नति का कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगा। तदर्थ प्रोन्नति को किसी भी समय रद्द करने और उन्हें आशुलिपि ग्रेड 'सो' में लौटाने का अधिकार सरकार के पास सुरक्षित है।

पार्वती कौटिया, अवर सचिव

इस्पात मंत्रालय

दिनांक 17 दिसम्बर 2004

नई दिल्ली, दिनांक 8 दिसम्बर 2004

सं० 2 (6)/2004-स्थापना—राष्ट्रपति द्वारा श्री वीर विजय सिंह को 27-5-2004 (पूर्वाह्न) से मंत्री जी द्वारा उनकी सेवाओं की आवश्यकता होने तक अथवा मंत्री जी द्वारा रसायन और उर्वरक तथा इस्पात मंत्री का कार्यालय छोड़े जाने तक, जो भी पहले हो, रसायन और उर्वरक तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविनास पासवान) के सहायक फिजो सचिव के रूप में नियुक्त किया जाता है।

बाबू राम, अवर सचिव

सं० 11(36)/2002-स्थापना (.)—राष्ट्रपति द्वारा इस समय इसका मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपि सेवा संवर्ग में आशुलिपि ग्रेड-सी के पद पर निर्धारित मो. सं० भट्ट की दिनांक 14-6-2004 के 180 दिनों अवधि के लिए अथवा अपने आदेश होने तक इस सेवा तथा संवर्ग में फिजो सचिव (आशुलिपि ग्रेड ए तथा बी) के पद पर नियुक्त किया जाता है।

2. फिजो सचिव के पद पर श्री भट्ट की पदोन्नति पूर्णतः तदर्थ आधार पर है तथा इस तदर्थ नियुक्ति के आधार पर वे वरिष्ठता तथा निम्नलिखित पदोन्नति का दावा नहीं कर सकेंगे।

बाबू राम, अवर सचिव

सं० 5(13)/95-स्थापना—राष्ट्रपति द्वारा इसका मंत्रालय के नियंत्रणाधीन विकास आयुक्ता, लोहा और इस्पात के कोलाला स्थित मुख्य कार्यालय में स्थायी उप औद्योगिक सहायक श्री बाबू डी० घोष को इसी कार्यालय में स्थानापन्न रूप में कार्य करने के लिए दिनांक 13 दिसम्बर 2004 (पूर्वाह्न) से दिनांक 27-5-2005 तक अथवा नियुक्ति के लिए निर्धारित अवधि का उपलब्ध होने तक अथवा अपने आदेशों तक, इन्हें से जो भी पहले हो, तदर्थ आधार पर नियुक्त औद्योगिक सहायक के रूप में नियुक्त किया जाता है।

इस तदर्थ नियुक्ति से श्री बाबू डी० घोष इस पद पर नियुक्त किए जाने अथवा किसी भी प्रयोजन के लिए इस ग्रेड में वरिष्ठता का दावा नहीं कर सकेंगे। सरकार के कारण बतौर और बगैर नोटित दि. श्री बाबू डी० घोष की तदर्थ नियुक्ति को रद्द कर सती है।

बाबू राम, अवर सचिव

सं० 5 (13)/95-स्थापना—पर्यावरण एवं वा. मंत्रालय में विदेश (राजभाषा) के पद पर नियुक्ति हेतु गृह मंत्रालय (राजभाषा विभाग) द्वारा नामांकित किए जाने पर इस समय इस्पात मंत्रालय में संयुक्त विदेश (राजभाषा) के पद पर कार्य कर रहे केन्द्रिय सचिवालय राजभाषा सेवा के अधिकारी, श्री जय नारायण दिनांक 17-12-2004 (पूर्वाह्न) से कार्यरत हो रहे हैं। तदनुसार उनकी सेवा इसी तरीके से पर्यावरण एवं वा. मंत्रालय को सौंपी जाती है।

बाबू राम, अवर सचिव

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक विवरण विभाग

(उपभोक्ता मामले विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 4 जनवरी 2005

सं० ए-43011/2/2001-प्रशा०—राष्ट्रपति, श्री पवन कुमार, निम्नलिखित प्रशा० निजी सचिव की 12,000-375-16,500/- रु० के वेतनमान में वरिष्ठ प्रशा० निजी सचिव के पद पर तदर्थ आधार पर नियुक्ति को 1 जनवरी 2005 से 30 जून 2005 तक अगले 6 महीने की अवधि के लिए अथवा नियमित वरिष्ठ प्रशा० निजी सचिव के उल्लेख होने तक या अगले आदेशों तक, इन्हें से जी मो राहें हों, आगे बढ़ाते हैं।

2. उक्त तदर्थ नियुक्ति से उक्त वरिष्ठ प्रशा० निजी सचिव के पेड में निम्नलिखित, वरिष्ठ अथवा स्थायी-वरिष्ठ आदि का दावा करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

3. इसको कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 23 दिसम्बर, 2004 के का० जा० संख्या 5/15/2003-सी० एस० II के उक्त आदेश उक्त अनुसूची से अरो किया जाता है।

एस० के० नायक, अवर सचिव

(खाद्य और सार्वजनिक विवरण विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 13 दिसम्बर 2004

सं० ए० 38012/3/2004-एस० अर० ए०—इस विभाग के सामान्य केन्द्रीय सेवा, ग्रुप 'ए' के उप निदेशक (एस० एंड आर०) श्री क० चेतना अग्रवाल को प्राप्ति होने पर 30 नवम्बर, 2004 के आदेश से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

मित्र सेन, अवर सचिव

सं० ए० 38012/8/2004-एस० अर० ए०—इस विभाग के सामान्य केन्द्रीय सेवा, ग्रुप 'ए' के सहायक निदेशक (एस० एंड आर०) श्री नरेन्द्र प्रकाश, सी० सी० एस० (रि०) नियमावली के नियम 48ए के तहत 1 दिसम्बर, 2004 के आदेश से स्वीच्छिक रूप से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

(विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग)

नई दिल्ली-110016, दिनांक 27 दिसम्बर 2004

सं० ए-19014/03/2002-प्रशा० 1(ए)- राष्ट्रपति डा० रघुवेंद्र आश्री की निम्नलिखित "सी" के पद पर स्थायी हिसाब से 27-03-2004 से आगे आगामी आदेशों तक सहर्ष नियुक्त कर रहे हैं।

टी० एन० द्विवेदी, अवर सचिव

नई दिल्ली-110016, दिनांक 30 दिसम्बर 2004

सं० एस० एम०/01/042/2001—राष्ट्रपति निम्नलिखित अधिकारियों को, उक्त नाम के सामने दो गई तिथि से एवं अगले आदेशों तक रुपये 8,000-275-13,500 के वेतनमान में सनूह 'क' सेवा में भारतीय सर्वेक्षण विभाग में उक्त अधीक्षक सक्षक के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं :-

श्री महेश रविन्द्रनाथन 02-12-2004 (पूर्णाङ्क)

बी० के० रायचन्दानी, अवर सचिव

सं० एसएम/01/042/2001—राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों को, उक्त नाम के सामने दो गई तिथि से एवं अगले आदेशों तक रुपये 8,000-275-13,500/- के वेतनमान में सनूह 'क' सेवा में भारतीय सर्वेक्षण विभाग में उक्त अधीक्षक सक्षक के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं :-

श्री टी० प्रसन्ना मल्लिक 10-11-2004 (पूर्णाङ्क)

बी० के० रायचन्दानी, अवर सचिव

नई दिल्ली-110016, दिनांक 30 दिसम्बर 2004

सं० एस० एम०-01/052/2003—राष्ट्रपति, भारतीय सर्वेक्षण विभाग में अधीक्षक सक्षक के पद पर कार्यरत निम्नलिखित अधिकारी को उक्त विभाग में निदेशक के पद पर 14,300-400-18,300 रुपये के वेतनमान में उक्त नाम के सामने दर्शाई गई तिथि से आगामी आदेशों तक सहर्ष नियुक्त करते हैं :-

क्रमिक	अधिकारी का नाम	नियुक्ति की तिथि
1.	श्री राम प्रसाद	24-6-2004 (पूर्णाङ्क)

ए० जे० कुरियन, निदेशक

परिवारण एवं वन मंत्रालय

नई दिल्ली-3, दिनांक 6 जनवरी 2005

सं० ए-12012/1/2005 पी-II—राष्ट्रपति, श्री जय नारायण की परिवारण एवं वन मंत्रालय में 14,300-400-18,300/- रु० के वेतनमान में दिनांक 17 दिसम्बर, 2004 (पूर्वाह्न) से आगामी आदेशों तक निदेशक (रा० भा०) के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

जफरुल इस्लाम, अवर सचिव

सचिव (स्वास्थ्य) श्रीमती पी० ज्योति राव, भारतीय प्रशासनिक सेवा (उत्तरावत : 70), की नियुक्ति जाजातीय कार्य मंत्रालय में सचिव के पद पर होने के परिणामस्वरूप उन्हें नए कार्यभार ग्रहण करने के लिए दिनांक 27 दिसम्बर, 2004 के पूर्वाह्न से एतद्वारा उनके कार्यभार से मुक्त किया जाता है।

ए० के० देवरी, अवर सचिव

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 3 जनवरी 2005

सं० ए० 12025/11/2002-सी० एच० एस०-1—राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर, डा० मीनाक्षी सल्हण को 5 मार्च, 2003 के अपराह्न से आगामी आदेशों तक, केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में 8000-275-13,500/- रु० के वेतनमान में अस्थायी आधार पर नियुक्त करते हैं। डा० मीनाक्षी सल्हण को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अधीन चिकित्सा अधिकारों के पद पर तैनात किया जाता है।

राष्ट्रपति, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली के अधीन केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी के पद से डा० मीनाक्षी सल्हण का त्यागनाम भी 30 जून, 2003 के अपराह्न से स्वीकार करते हैं।

जगदीश कुमार, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 27 दिसम्बर 2004

सं० ए० 22012/1/2003-स्थापना-1—कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 20 दिसम्बर, 2004 के आदेश सं० 13/18/2004-ई०ओ० (एस०एम०-1) के तहत स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से जफरुल

स्वास्थ्य सेवा मशार्तिदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 16 अगस्त 2004

सं० ए-38012/1/2004-प्रशासना-I—सेवा निवृत्ति की आयु हो जाने के फलस्वरूप श्री ज्ञान इन्द्र पूर्व वरिष्ठ वास्तुकार (सी०डो०बी०) दिनांक 31-07-2004 के अपराह्न से सरकारी सेवा से निवृत्त हो गए हैं।

करनैल सिंह, उप निदेशक प्रशासना (के० एस०)

कृषि मंत्रालय

(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 05 जनवरी 2005

सं० 12023/6/2004-स्था० V—राष्ट्रपति श्री एल० के० तिवरा, आई०एस० (उड़ीसा : 86) 16,400-450-20,000 रु० के वेतनमान में दिनांक 20 दिसम्बर, 2004 (पूर्वाह्न) से प्रतिनियुक्ति आधार पर कृषि एवं सहकारिता विभाग के अर ए० एस० प्रभाग में अर आयुक्त (वाणिज्य) के रूप में अधिकतम पांच वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त करते हैं।

के० डी० उप्रेती, अवर सचिव

दिनांक 10 जनवरी 2005

सं० 32011/2/2002-स्था० 5—राष्ट्रपति श्री एच० पी० सिंह, वरिष्ठ तकनीकी सहायक (विशेष) की कृषि एवं सहकारिता विभाग में 8000-13500 रु० के वेतनमान से दिनांक 24-12-2004 (पूर्वाह्न) से रुकतया तदर्थ

आधार पर छः महीने की अवधि के लिए अथवा आगामी आदेश होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, विधि अधिकारी (उर्वरक) के रूप में नियुक्त करते हैं।

के० डी० उप्रेती, अवर सचिव

विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय

फरीदाबाद, दिनांक 08 दिसम्बर 2004

फा०सं०ए० 31014/1/2000-प्रशा०-1—कृषि विपणन सलाहकार, भारत सरकार ने निम्नलिखित अधिकारियों की विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय में उनके नामों के सामने लिखी तारीखों से विपणन अधिकारी (ग्रुप I) के पद पर मूल रूप से नियुक्त किया है :—

क्र० सं०	अधिकारी का नाम	स्थायीकरण की तारीख
1	2	3
1.	श्री अजय कुमार गुप्ता	9-11-2002
2.	श्री प्रकाश बाबनावर	7-12-2002
3.	श्री संजय मेहरा	18-10-2002
4.	डा० शलेश कुमार मिश्रा	10-11-2002
5.	श्री सचय कुमार कौल	01-11-2002
6.	श्री भवेश कुमार जोशी	09-11-2002
7.	श्री मनीष कुमार चौधरी	31-10-2002
8.	डा० सुरेन्द्र कुमार सिंह	01-11-2002
9.	श्री सतबीर सिंह सागू	20-10-2002
10.	डा० सैयद इकलाल हुसैन	23-10-2002
11.	डा० उमाशंकर शुक्ला	19-10-2002
12.	डा० जयवीर सिंह	16-10-2002
13.	श्री तापस भट्टाचार्य	06-11-2002
14.	श्री प्रसाद चक्रवर्ती	01-11-2002
15.	डा० गजेन्द्र सिंह	08-12-2002
16.	श्री अनुज कुमार उपाध्याय	31-10-2002
17.	डा० नाहर पाल सिंह	09-11-2002
18.	डा०डी०एम० गोविंद रेड्डी	09-11-2002

1	2	3
19.	श्री मेलकीन रॉय पिल्लई	16-11-2002
20.	श्री अण्ठे लाल मौर्य	09-11-2002
21.	श्री मधुर प्रकाश वर्मा	09-11-2002
22.	श्री मनोज कुमार	06-11-2002
23.	डा० राजा राम सैनी	06-11-2002
24.	श्री दयानन्द वैकण्ठरमण नायक	09-11-2002
25.	डॉ० वीरेन्द्र सिंह यादव	16-10-2002
26.	श्री विजय कुमार प्रष्टी	01-11-2002
27.	श्री के० गणेशन	16-11-2002
28.	श्री दिनेश कुमार	23-10-2002
29.	श्री सुबत साहा	19-12-2002
30.	डा० अतिल कुमार गहलोत	23-10-2002
31.	श्री अजय याकूब	23-10-2002

ए० के० पौरडा, अवर सचिव

ग्रामीण विकास मंत्रालय

(भूमि संसाधन विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 3 जनवरी 2005

सं० ए-12026/2/2004-प्रशा०-1—राष्ट्रपति, श्रीमती अर्चना सिंह, भारतीय वा सेवा, (ए०जी०एम०यू०टी०: 86) को 3 जनवरी, 2005 के पूर्वाह्न से 4 वर्षों की अवधि के लिए अथवा अगले आदेश होने तक, जो भी पहले हो, भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय में 14300-400-18300 रु० के वेतनमान में सहायक महानिरीक्षक-वन के पद पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्त करते हैं।

जी० बी० उपाध्याय, अवर सचिव

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(सांख्यिक और उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 20 दिसम्बर 2004

सं० ए०-32011/2/2004-स्था०-1—राष्ट्रपति, श्रीस० सी० गुप्ता सहायक शिक्षा अधिकारी (सांख्यिकी) को 8000-275-13,500/- रु० के वेतनमान में 15 दिसम्बर, 2004 के पूर्वाह्न से अगले आदेश तक मानव संसाधन विकास

मंत्रालय (सांघ्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग) में सहायक निदेशक (योजना) के रूप में नियुक्त करते हैं।

के० के० मिश्र, अवर सचिव

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 24 दिसम्बर 2004

सं० 11013/1/2004-प्रशासन-राष्ट्रपति जी पाननीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री सुग्रीव दत्त) के निजी सचिव के तौर पर श्री प्रोफेसर बन्धु, भारतीय व्यापार सेवा (1989) को 21 दिसम्बर, 2004 को पूर्वाह्न से पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रथम सहवसती आधार पर अथवा माननीय मंत्री जी के निजी सचिव के तौर पर उक्त कार्य करने तक अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, सहर्ष नियुक्त करते हैं।

एस० एस० पनेसर, अवर सचिव

जनजातीय कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 4 जनवरी 2005

सं० 19011/8/2004-स्थापना (जनजातीय कार्य)--राष्ट्रपति, श्रीमती पी० ज्योति रव, आईएस (उत्तरांचल : 70) को 27 दिसम्बर 2004 के पूर्वाह्न से जनजातीय कार्य मंत्रालय में सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

सुरेन्द्र कुमार गुप्ता, उप सचिव

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 28 दिसम्बर 2004

सं० ए-19011/1/2000-स्था०--राष्ट्रपति, श्रीमती राजवन्त संधू, भा० प्र० से० (हि० प्र० : 75) संयुक्त सचिव को, उनकी केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति का कार्यकाल पूरा हो जाने पर, 4-1-2005 (पूर्वाह्न) से सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से पदभार मुक्त करते हैं।

2. इसके अतिरिक्त, श्रीमती संधू को 5-1-2005 से 4-3-2005 तक (5 और 6 मार्च 2005 बाद में) 59 दिनों की अतिरिक्त छुट्टी प्रदान की जाती है। उद्दिष्ट छुट्टी

समाप्त हो जाने के बाद श्रीमती संधू की सेवाएं उनके मूल संबंध अर्थात् हिमाचल प्रदेश सरकार हो जाती जाती है।

एल० सी० मेहरा, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 4 जनवरी 2005

सं० ई-13015/1/2003 हि०--राष्ट्रीय सरकार, राजभाषा (संघ के शासकीय भाषाओं के लिए प्रयोग) विभाग, 1976 के नियम 10 के उप नियम (4) के अनुसरण में, राष्ट्रीय शिक्षा, वर्ग वित्त एवं विकास विभाग, नई दिल्ली, जिसके 80% कर्मचारियों ने हिंदी का कार्यकारी ज्ञान प्राप्त कर लिया है, को अधिकृत करते हैं।

पी० के० ज. जोरिया, निदेशक (प्रशा०)

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(सूचना प्रौद्योगिकी विभाग)

राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र

नई दिल्ली-110003, दिनांक 13 दिसम्बर 2004

सं० एन आई सी एच पी/पी 1396/1/ए/88/10752--राष्ट्रपति एतद्वारा श्री सुनील शर्मा, (कर्मचारी कोड सं० 1396) राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र, हिमाचल प्रदेश राज्य एकक, शिमला में वैज्ञानिक अधिकारी/इंजीनियर ग्रेड-"एसबी" के पद से त्यागपत्र दिनांक 19 और 1999 को अस्वीकृत से स्वीकार करते हैं और उन्हें उसी दिनांक से कार्यमुक्त किया जाता है।

पी० एस० पिल्लै, उप निदेशक (प्रशा०)

दिनांक 6 जनवरी 2005

सं० 4922/एन आई सी/2004-प्रशासन-II--मह. निदेशक राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र एतद्वारा केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण व श्रेणी) विभाग, 1965 के नियम 15/(4) के अंतर्गत शर्तियों को इस्तेमाल करते हुए, राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में श्री दीपक जैन, वैज्ञानिक/अभिज्ञ/इंजीनियर-एस को (कर्मचारी कोड सं० 4922) को दिनांक 15.03.2004 से सेवा से निष्काशित करते हैं।

पी० एस० पिल्लै, उप निदेशक (पी० ई० II)

रेलवे मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 4 जनवरी 2005

सं० ई० आर० बी-1/2004/3/3--प्रो एन० कुमार
सहायक, रेलवे बोर्ड को 11-10-2004 (पूर्वार्द्ध) से
6500-10500/-रु० (आर० एस० आर० पी०) के वेतन
मान में लक्ष्य आकार पर अनुभागा अधिकारी, रेलवे बोर्ड
के कार्यालय में स्थापना रूप से कार्य करने के लिए पदोन्नत
किया गया है।

वी० एन० माथुर, सचिव, रेलवे बोर्ड

दिनांक 5 जनवरी 2005

सं० ई (जीपी) 2003/1/57—राष्ट्रपति जी भारतीय रेल लेखा विभाग के निर्माणागत 13 ग्रा "बी" अधिकाृतियों की उल्लिखित रेलों पर 2-11-2004 से भारतीय रेल लेखा सेवा के कनिष्ठ वेतनमान में मूल रूप से नियुक्ति किए जाने का अनमोदन करते हैं।

2004-2005 के लिए पैनल

क्रम अधिकारियों

सं० का नाम

सध्य रेलवे

सर्व श्री

1. डी० के० दारवाड़े
2. जी० हनुमन्त राव

पुर्वं रेलवे

1. जे० के० सेन गुप्ता

उत्तर रेलवे

1. रमेश लाल (डी०आ०का० में कार्यरत)
2. एस० के० आजाद (अ०जा०)

उत्तर पूर्व रेलवे

1. बी० पी० ठाकुर (डी० रे० का० में कार्यरत)
2. पी० सी० लाक्का
(अ० ज० जा०)

दक्षिण रेलवे

1. पी० नेसमणि

दक्षिण मध्य रेलवे

१. वी० ए० पदमनाभम

दक्षिण पूर्व रेलवे

1. ए० के० प्रधान
2. बी० बी० बेरा (अ० ज०)

षष्ठिचम रेलवे

1. के० के० रमण
2. एच० बी० चावड़ा

बी० एन० माथुर, सचिव/रेलवे बोर्ड

विद्युत मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 6 जनवरी 2005

सं० 01/2005-मि० सं० ए-38012/1/2004-प्रशा०
एक-र.ष्ट्रपति विद्युत अधिनियम 2003, (2003 का 36)
की धारा 70 को उस धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का
प्रयोग करते हुए निम्नलिखित अधिनियमों को केन्द्रीय विद्युत
प्राधिकरण के सदस्य पद पर प्रतिनियुक्ति आधार पर
22400-24500/- रुपये के वेतनमान में भारत सरकार में
अपर सचिव के पदेन स्तर में, उनके नामों के सामने उल्लि-
खित तिथियों से पांच वर्ष के लिए, या अर्धवर्षिता की आयु
प्राप्त होने पर, या अगले आदेशों तक नियुक्त करते हैं :-

अधिकारियों का नाम	सेवा का नाम	पद का नाम	नियुक्ति की तिथि
श्री शैलेन्द्र पांडे	आई० ए० एंड ए० एस०	सदस्य (आर्थिक और वाणिज्यिक)	8-12-2004 (पूर्वाह्न)
श्री गुरदयाल सिंह	केन्द्रिय विद्युत इंजीनियरी (समूह-क) सेवा	सदस्य (हाइड्रो)	2-12-2004 (पूर्वाह्न)
श्री बी० रामाशरणन	केन्द्रीय विद्युत इंजीनियरी (समूह-क) सेवा	सदस्य (पावर सिस्टम)	2-12-2004 (पूर्वाह्न)

आर० सी० अरोरा, अव्वर सचिव

शहरी विकास मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 17 दिसम्बर 2004

सं० ए०-22012/1/2004-प्रशासन-I :—राष्ट्रपति,
श्री संजय कुमार साह, आईआरएस (आईटी : 90) को
शहरी विकास मंत्रालय में निदेशक के पद पर 14,300-400-
18300/- रु० के वेतनमान में दिनांक 15-12-2004
(पूर्वाह्न) से 5 वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों
तक, जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं।

भार० के० सिन्हा, उप सचिव

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

रोजगार एवं प्रशिक्षण महाविद्यालय

नई दिल्ली, दिनांक 31 दिसम्बर 2004

सं० डीजीपी-1-19013/3/2001-प्रशा-II--राष्ट्रपति,
श्री के० के० मिश्र, आई० ए० एस० ए० एम० 83 को
उनके 5 वर्ष के सामान्य कार्यकाल की शेष अवधि अर्थात्
20-6-2006 अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो
हेतु 21 दिसम्बर, 2004 को पूर्वाह्न से महाविदेशिक (रोजगार
एवं प्रशिक्षण) तथा श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, रोजगार एवं
प्रशिक्षण महाविद्यालय में पदेन संयुक्त सचिव के रूप में
नियुक्त करते हैं।

भार० के० आहलूवालिया, अवर सचिव

PRIME MINISTER'S OFFICE

New Delhi-110011, the 05th January 2005

No. A. 22012/1/2004-PMA—Consequent upon completion of tenure on central deputation, Shri Chhatar Singh, IAS (HY:80) has relinquished the charge of the post of Joint Secretary in the Prime Minister's Office with effect from the afternoon of 5th January, 2005.

P. K. ROY, Under Secy.

RAJYA SABHA SECRETARIAT

New Delhi-110001, the 06th January, 2005

No. RS/3(v)/2004/1-Perl.—The Chairman, Rajya Sabha has been pleased to appoint Shri Gobind Lal, Chief Parliamentary Reporter in the Rajya Sabha Secretariat to officiate as Principal Chief Parliamentary Reporter in that Secretariat, with effect from the forenoon of the 5th January, 2005, until further orders.

P. R. GUHA ROY, Dir.

New Delhi-110001, the 7th January 2005

No. RS/6(iv)/2004/2-Perl.—Smt. Promilla Thusu has been temporarily appointed as Senior Private Secretary in the Rajya Sabha Secretariat in the scale of pay of Rs. 10000-325-15200 in the personal staff of the Chairman, Committee on Government Assurances w.e.f. the forenoon of the 12th August, 2004 until further orders.

2. The appointment of Smt. Promilla Thusu is at the discretion of the present Chairman, Committee on Government Assurances and will be co-terminus with the term of his office.

VANJULA G. RAJAN, Under Secy.

LOK SABHA SECRETARIAT

New Delhi-110001, the 23rd December 2004

No. PF. 2510(3)/GN-5314/2004/AN-I.—The following officiating Executive/Legislative/Committee/Protocol Officers are appointed as Executive/Legislative/Committee/Protocol Officer in a substantive capacity with effect from the dates as mentioned against their names:—

Sl. No.	Name	Date
1.	Shri Satya-Prakash	10.10.2004
2.	Shri S. R. Mishra	15.09.2004
3.	Dr. (Smt.) Sagarika Dash	26.09.2004
4.	Smt. Reena M. Jacob	15.09.2004
5.	Shri C. Kalyanasundaram	15.09.2004

2. This is in continuation of Notification Nos. GN-5020 dated 29.09.2003, GN-5026 dated 03.10.2003 and GN-5036 dated 15.10.2003.

P. SREEDHARAN, Dir.

New Delhi-110001, the 23rd December 2004

No. PF.1356(3)/AN-I/GN-5320/2004.—The following persons have successfully completed the probation period in the grade of Executive/Legislative/Committee/Protocol Officer:—

1. Smt. Kamlesh Pahwa
2. Shri V.P. Gupta
3. Shri R.K. Bhatnagar
4. Shri Yashpal Dhawan
5. Shri R.C. Bhardwaj
6. Smt. Punam Sharma
7. Smt. Kiran Lata Nandwani
8. Shri V.K. Gupta
9. Shri T.H. Rao
10. Smt. Kamlesh Matta
11. Shri Arvind Sharma
12. Smt. B. Visala
13. Shri S.K. Mishra
14. Shri Ramesh Lal
15. Smt. Maya Lingi

2. This is in continuation of Notification Nos. GN-4817 dated 18.09.2002, GN-4818 dated 18.09.2002 and GN-4825 dated 17.10.2002.

ANAND B. KULKARNI, Jr. Secy.

The 27th December 2004

No. PF/3823(3)/AN-I/GN-5319/2004.—Consequent upon acceptance of resignation tendered from the post of Executive/Legislative/Committee/Protocol Officer, Shri M.C. Suresh is relieved of his duties in this Secretariat with effect from the afternoon of 27th December, 2004 and thereafter his services shall stand placed at the disposal of Office of the Commissioner of Central Excise-III, Chennai.

ANAND B. KULKARNI, Jr. Secy.

The 31st December 2004

No. PF. 1262(3)/GN-5327/AN-I/2004.—The Speaker is pleased to appoint Shri P.D.T. Achary, Additional Secretary in the scale of pay of Rs. 22400—24500 as Secretary, Lok Sabha Secretariat in the scale of pay of Rs. 26000/- (fixed) with effect from 1st January, 2005 until further orders.

ANAND B. KULKARNI, Jr. Secy.

No. PF. 3422(3)/GN-5328/AN-I/2004.—Consequent upon their selection to the post of Assistant Editor on the basis of Competitive Departmental Examination (Promotion Quota) held on 04.12.2004, the Speaker is pleased to appoint the following Translators in the scale of pay of Rs. 7450—11500 to the grade of Assistant Editor in the scale of pay of Rs. 8000-275-13500 in an officiating capacity with effect from 30th December, 2004 until further orders:—

1. Shri Shivaji Shrivastava
2. Shri Uday Sharan
3. Shri Nalin Kumar

2. They will be on probation in the grade of Assistant Editor for a period of two years with effect from 30th December, 2004 upto 29th December, 2006.

3. Their *inter-se-seniority* in the grade of Assistant Editor will be regulated in terms of R&CS Order No. PDA-1076/2003 dated 20th December, 2003.

ANAND B. KULKARNI, Jt. Secy.

No. PF.1479(3)/GN-5329/AN-I/2004.—Under Rule 48 of CCS (Pension) Rules, 1972, as adopted vide R&CS Order No. PGF-104/73 dated 25th January, 1973 as amended from time to time, the Competent Authority has accepted the request dated 28th October, 2004 of Shri Devi Prasad, Manager of Printing in the scale of Rs. 8000-275-13500 to permit him to retire voluntarily from service with effect from the afternoon of 31st December, 2004.

2. Accordingly, Shri Devi Prasad has retired from service with effect from the afternoon of 31st December, 2004.

ANAND B. KULKARNI, Jt. Secy.

The 3rd January 2005

No. 15/10/2003/GN-5330/AN-I.—Consequent upon his selection to the post of Executive/Legislative/Committee/Protocol Officer on the basis of written examination and personal interview held on 8th—10th February, 2002 and 27th-28th December, 2002 respectively in Lok Sabha Secretariat, the Speaker is pleased to appoint Shri Gulab Chand Prasad to the grade of Executive/Legislative/Committee/Protocol Officer in the scale of pay of Rs. 8000-275-13500 in an officiating capacity with effect from the forenoon of 31st December, 2004 until further orders.

2. He will be on probation in the grade of Executive/Legislative/Committee/Protocol Officer for a period of one year with effect from 31st December, 2004 upto 30th December, 2005.

3. His *inter-se-seniority* in the grade of Executive/Legislative/Committee/Protocol Officer will be regulated as per R&CS Order No. PDA-1076/2003 dated 20th December, 2003.

ANAND B. KULKARNI, Jt. Secy.

The 04th January 2005

No. 24/21/GN-5331/2004/AN-I.—In terms of R & CS Order No. PDA-1076/2003 dated 20.12.2003, the *inter-se-seniority* of the following persons in the grade of Assistant Director is fixed in the order as shown below :—

1. Sh. Pawan Kumar
2. Sh. P. C. Tripathy
3. Sh. O.P. Shokeen
4. Sh. Kshetrabasi Jena
5. Sh. Desh Raj Shekhar
6. Sh. Jadu Mani Baisakh
7. Dr. Ram Raj Rai
8. Sh. N. K. Pandey
9. Sh. Ashok Singh Sajwan
10. Sh. Shilpi Chatterjee
11. Sh. A. K. Shah
12. Sh. Y. M. Kandpal
13. Sh. J. V. G. Reddy
14. Sh. M. K. Madhusudan
15. Sh. V. K. Mohan
16. Sh. Vipin Kumar
17. Sh. Ajay Kumar
18. Sh. H. M. Bhatt
19. Sh. R. P. Nautiyal
20. Smt. Rita Jailkhani
21. Smt. Ratna Bhagwani
22. Sh. Jagdish Prasad
23. Sh. Khushi Ram
24. Sh. O. P. Sharma
25. Sh. S. K. Saxena
26. Smt. Manju Chaudhary
27. Sh. V. P. Goel
28. Smt. Nargis Gulati
29. Sh. Narain Dass
30. Sh. Ravi Chand Jain
31. Sh. R. D. Silawat
32. Smt. S. K. Johar

ANAND B. KULKARNI, Jt. Secy.

CABINET SECRETARIAT

New Delhi, the 4th January 2005

No. A. 38012/2/2004-Ad.I.—On attaining the age of superannuation, Shri G. K. Chanana, Director, CSS, in Cabinet Secretariat retired from Government Service in the afternoon of 31st December, 2004.

SUNIL MISHRA, Dy. Secy.

PLANNING COMMISSION

New Delhi, the 30th December 2004

No. F. 6 (1855)/2002-Adm.I.—Consequent on his selection for appointment as Chief Economist in City and Industrial Development Corporation (CIDC) of Maharashtra Ltd., Mumbai on deputation on foreign service terms, Shri M. N. Lothe, NFSG Officer of IES and Director, Planning Commission is relieved from the Planning Commission w.e.f. 30.12.2004 (AN) to join CIDC of Maharashtra Ltd., Mumbai.

K. K. CHHABRA, Under Secy.

No. A-12025/10/2002-Adm. II.—The President is pleased to appoint Dr. S. K. Gupta, Assistant Manager, National Seeds Corporation Limited, as Senior Research Officer (Scientific Research) in the Planning Commission in the scale of pay of Rs. 10000-325-15200 on deputation basis for a period of three years with effect from 30.12.2004 (FN) or until further orders, whichever is earlier.

K. K. CHHABRA, Under Secy.

No. A. 12025/2/2004-Adm.II.—In continuation of Planning Commission's Notification of even number dated 19th April, 2004, the term of ad-hoc deputation of Smt. Renu Lal, Senior Research Officer, IAMR, as Senior Research Officer in the Planning Commission is extended upto 31.3.2005 or until further orders, whichever is earlier.

K. K. CHHABRA, Under Secy.

The 31st December 2004

No. Adm. II. (602)/66-Vol. II.—On attaining the age of superannuation, Shri Prem Singh, Research Officer (ad-hoc), Planning Commission retires from Government Service with effect from 31.12.2004 (A.N.). Consequently, he has relinquished charge from that date.

K. K. CHHABRA, Under Secy.

No. A-12025/4/97-Admn. II.—On expiry of their term of ad-hoc deputation as Research Officer in the Planning Commission, S/Shri B. S. Rathore and Kailash Chand are reverted to their Cadre posts of Statistical Investigator Grade-I of Subordinate Statistical Service (SSS) in the scale of pay of Rs. 7450-225-11500/- w.e.f. 31.12.2004 (A.N.).

In view of redesignation of the said post of SSS as Statistical Officer (Senior Grade) in the Planning Commission vide Order No. A-26011/18/97-Adm. II, dated 15.12.2004, S/Shri B. S. Rathore and Kailash Chand are appointed as Statistical Officers (Sr. Grade) in the Planning Commission in the Scale of pay of Rs. 7450-225-11500/- w.e.f. 1.1.2005, until further orders.

K. K. CHHABRA, Under Secy.

The 5th January 2005

No. 19(790)/2000-Adm. II.—Consequent upon the expiry of tenure of the Twelfth Finance Commission, Shri Rajiv Mishra, a Grade III Officer of IES, who was on deputation with the Twelfth Finance Commission has joined back Planning Commission as Senior Research Officer in the scale of pay of Rs. 10000-325-15200/- w.e.f. 31.12.2004 (A.N.).

K. K. CHHABRA, Under Secy.

New Delhi, the 3rd January 2005

No. A-43011/1/2005-Adm. I.—In pursuance of Cabinet Secretariat's UO No. 1/4/8/2004-CA.IV, dated 30.12.2004, Economic Advisory Council (EAC) to the Prime Minister is constituted with the following composition and terms of reference :—

COMPOSITION :

- | | |
|----------------------------|--|
| (i) Dr. C. Rangarajan | full-time chairman in the rank of Cabinet Minister |
| (ii) Dr. M. Govinda Rao | part-time Member in the rank of MOS |
| (iii) Dr. Suresh Tendulkar | part-time Member in the rank of MOS |
| (iv) Dr. G. S. Chaddha | part-time Member in the rank of MOS |
| (v) Dr. Saumitra Chaudhury | part-time Member in the rank of MOS |

TERMS OF REFERENCE :

- (i) Analyzing any issue, economic or otherwise, referred to it by the Prime Minister and advising him thereon;
 - (ii) Addressing issues of macroeconomic importance and presenting views thereon to the Prime Minister. This could be either suo-moto or on a reference from the Prime Minister or anyone else;
 - (iii) Submitting periodic reports to the Prime Minister on macroeconomic developments and issues with implications for economic policy;
 - (iv) Attending to any other task as may be desired by the Prime Minister from time to time.
2. The EAC will have the option to engage Consultants and higher-level research staff to assist in its tasks.
 3. The Planning Commission will be the Nodal Agency for the EAC for administrative, logistic, planning and budgeting purposes. The Planning Commission will also make necessary arrangements for providing required office space.
 4. Government housing will be provided to the Chairman and Secretary of the EAC from the General Pool of the Department of Urban Development.

RAJEEVA R. SHAH, Secy.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 6th January 2005

No. A-32014/07/2002-Ad.I—In pursuance of Department of Personnel & Training's OM No. 5/15/2003-CS-II dated 23.12.2004, the President is pleased to continue the ad-hoc appointment of the following Senior Principal Private Secretaries working in the Ministry of Home Affairs for a further period upto 30.06.2005 or till regular Sr. PPSs become available or until further orders, whichever is earlier. The post of Sr. PPS is purely on ad-hoc in nature and shall not confer any right on them to continue in the posts indefinitely or to claim seniority in the grade of Sr. PPS of CSSS :—

Sl. No.	Name of the Officer
---------	---------------------

- | | |
|----|-----------------|
| | S/Shri |
| 1. | K. K. Upadhyaya |
| 2. | K. L. Bajaj |
| 3. | Brij Mohan |
| 4. | P. Tahiliani |
| 5. | M. M. Sharma |

S. K. BHATNAGAR, Under Secy.

New Delhi, the 7th January 2005

No. A-32014/03/2002-Ad. I—In pursuance of Department of Personnel & Training's OM No. 5/16/2003-CS.II dated 23.12.2004, the President is pleased to continue the ad-hoc appointment of the following Principal Private Secretaries working in the Ministry of Home Affairs for a further period upto 30.06.2005 or till regular PPS become available or until further orders, whichever is earlier. The post of PPS is purely on ad-hoc in nature and shall not confer any right on them to continue in the posts indefinitely or to claim seniority in the grade of PPS of CSSS :—

Sl. No.	Name of the Officer
---------	---------------------

- | | |
|----|-----------------------|
| | S/Shri |
| 1. | V. K. Narang |
| 2. | H. C. Narang |
| 3. | P. Divakaran |
| 4. | Ms. Anita Chakraborty |
| 5. | V. Mithran |
| 6. | T. A. Balakrishnan |
| 7. | V. P. Mahajan |
| 8. | R. D. Sharma |
| 9. | B. Nageshwara Rao |

S. K. BHATNAGAR, Under Secy.

New Delhi-1, the 7th January 2005

No. 14031/1/2003-UTS.I—On attaining the age of superannuation, the following Indian Administrative Service officers of Joint Cadre of Arunachal Pradesh-Goa-Mizoram-Union Territories, retired from service in the afternoon of 31st December, 2004 :—

1. Smt. Bimla Jindgar (AGMU : 84)
2. Shri Y. D. Bankata (AGMU : 85)

K. K. KALRA, Under Secy.

No.14031/1/2003-UTS—On attaining the age of superannuation, Shri Thanhawala, an Indian Administrative Service Officer of 1991 Batch of Joint Cadre of Arunachal Pradesh-Goa-Mizoram-Union Territories, retired from service in the afternoon of 31st December, 2004.

K. K. KALRA, Under Secy.

New Delhi-110001, the 07th January 2005

No. I-12015/01/2002-IPS-IV—In exercise of powers conferred by Sub-rule (1) of Rule-5 of the Indian Police Service (Cadre) Rules, 1954, the Central Government allocates following cadres to the candidates allocated to the Indian Police Service on the basis of the results of the Civil Services Examination, 2003.

Sl. No.	Rank	Name of the Candidate	Cadre Allocated
1	2	3	4
		S/Shri	
1.	72	Tarun Joshi	Andhra Pradesh
2.	104	Navin Gulati	Andhra Pradesh
3.	211	Kanthi Rana Tata	Andhra Pradesh
4.	281	Shravan Kumar Meena	Andhra Pradesh
5.	75	Veenu Bansal	Assam-Meghalaya
6.	107	Ravneet Singh	Assam-Meghalaya
7.	140	Anand Prakash Tiwari	Assam-Meghalaya
8.	301	Anurag Kumar	Assam-Meghalaya
9.	183	P. Karunakaran	AGMU
10.	269	Gnanasambandan N.	AGMU
11.	173	Vinay Kumar	Bihar
12.	248	Sunku Srinivasu	Bihar
13.	84	Ms. Neha	Chhattisgarh
14.	109	Abhishek Pathak	Chhattisgarh
15.	142	Ankit Kumar Garg	Chhattisgarh
16.	207	Ajay Kumar Yadav	Chhattisgarh
17.	307	Badri Narayan Meena	Chhattisgarh
18.	85	Ms. Gagandeep Gambhir	Gujarat

1	2	3	4
	S/Shri		
19.	112	Sandeep Singh	Gujarat
20.	202	Pawan Kumar Sain	Gujarat
21.	323	Parmar Gautamkumar Manilal	Gujarat
22.	87	Satender Kumar Gupta	Haryana
23.	213	Satheesh Balan. B	Haryana
24.	90	Agnihotri Sonal Mohan	Himachal Pradesh
25.	92	Patil Ravindranath Prabhakar	J&K
26.	113	Atul Kumar Goel	J&K
27.	214	Wani Vikram Prakash	J&K
28.	255	Sachin Badshah	J&K
29.	313	Bim Sen Tuti	J&K
30.	67	Prabhat Kumar	Jharkhand
31.	221	Homkar Amol Vinukant	Jharkhand
32.	128	Ms. Shuchita Gupta	Karnataka
33.	131	Sandeep Patil	Karnataka
34.	133	Harsha P.S.	Karnataka
35.	226	Labhu Ram	Karnataka
36.	319	Vikash Kumar Vikash	Karnataka
37.	74	Anup Kuruvilla John	Kerala
38.	114	Vikramjit Singh	Kerala
39.	227	P. Prakash	Kerala
40.	266	Trilok Chandra K.V.	Kerala
41.	322	K. Sethu Raman	Kerala
42.	94	Sanjay Kumar	Madhya Pradesh
43.	206	Gaurav Rajput	Madhya Pradesh
44.	52	Karnik Sandeep Prakash	Maharashtra
45.	76	Padwal Pravinkumar Tabaji	Maharashtra
46.	132	Nishith Mishra	Maharashtra
47.	235	Jaya Kumar S.	Maharashtra
48.	267	Satya Narayan	Maharashtra
49.	321	Lakshmi Chand	Maharashtra
50.	95	Rajat Kumar	Manipur-Tripura
51.	116	Yashovardhan Pathak	Manipur-Tripura
52.	241	Deepak Kumar	Manipur-Tripura
53.	334	Themthing Ngashangva	Manipur-Tripura
54.	101	Vikas Kumar	Nagaland
55.	118	Irshad Wali	Nagaland
56.	135	Ms. Parul Kush	Nagaland
57.	143	Ms. Shipra Sharma	Nagaland

1	2	3	4
	S/Shri		
58.	342	Lima Sunep Jamir	Nagaland
59.	70	Banchha Nidhi Pani	Orissa
60.	119	Ashish Kumar Singh	Orissa
61.	136	Deepak Kumar	Orissa
62.	192	Satya Brata Bohi	Orissa
63.	339	Nitinjeet Singh	Orissa
64.	355	Babu Lal Meena	Punjab
65.	106	Gaurav Srivastava	Rajasthan
66.	137	Sharat Kaviraj	Rajasthan
67.	243	Chalke Santoshkumar Tukaram	Rajasthan
68.	268	Ms. S. Parimala	Rajasthan
69.	356	Ms. K.B. Vandana	Rajasthan
70.	357	Om Prakash	Rajasthan
71.	102	Ms. Ruchika Rishi	Sikkim
72.	247	Diganta Barah	Sikkim
73.	86	K.A. Senthil Velan	Tamil Nadu
74.	124	Asra Garg	Tamil Nadu
75.	184	Avinash Kumar	Tamil Nadu
76.	354	A.G. Babu	Tamil Nadu
77.	361	Vidhi Kumar Birdi	Tamil Nadu
78.	57	Kewal Khurana	Uttaranchal
79.	63	Preetinder Singh	Uttar Pradesh
80.	185	Love Kumar	Uttar Pradesh
81.	299	Chandra Prakash	Uttar Pradesh
82.	360	K. Ejilerassane	Uttar Pradesh
83.	58	Mitesh Jain	West Bengal
84.	125	Praveen Kumar Tripathi	West Bengal
85.	139	Sabya Sachi Raman Mishra	West Bengal
86.	191	Sunil Kumar Choudhary	West Bengal
87.	245	Rishikesh Meena	West Bengal
88.	270	P.K. Ashok Babu	West Bengal

J.B. KAUSHISH, Desk Officer

The 11th January 2005

No. I-18011/14/2004-IPS.IV—In exercise of powers conferred by Rule-3A of Indian Police Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to

confirm Smt. Priya Dubey. IPS (Jharkhand: 1998), in Indian Police Service with effect from 20.09.2001.

J.B. KAUSHISH, Desk Officer

DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE

New Delhi, the 10th January 2005

CORRIGENDUM

No. 12013/3/2002-OL(Impl.-I)—Consequent upon Department of Official Language, Ministry of Home Affairs letter of even number dated 29.9.2003 the date of appointment of Smt. Sushmita Bhattacharya as Research Officer (Implementation) on absorption basis, in the Regional Implementation Office under Department of Official Language, Ministry of Home Affairs shall be read as from 27.7.2004 (F.N.) to 9.8.2004 (F.N.).

Smt. SAROJ JAISIA, Under Secy.

MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION

New Delhi, the 05th January 2005

No. 2/2/2005-Admn.—The President is pleased to appoint Shri Surender Kumar, IFS (MT: 85) as Director, Ministry of Development of North Eastern Region w.e.f. the forenoon of the 05.01.2005 on central deputation in the pay scale of Rs. 16,400-20,000 i.e. the scale of pay being drawn by him in the grade of IFS.

SAJAL MITTRA, Dir. (Admn.)

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING)

New Delhi, the 6th January 2005

No. 20/G/1151-Ad. I—The President is pleased to appoint Shri R. Ramanujam, IAS (MP : 79), as Joint Secretary in the Department of Personnel and Training, with effect from the afternoon of 31st December, 2004 for the balance period of his central deputation tenure i.e. upto 9.1.2008 or until further orders, whichever is earlier.

V. K. VELUKUTTY, Under Secy.

New Delhi, the 7th January 2005

No. 14015/01/2004-AIS(I)-A—In terms of the provisions contained in Sub-regulation (3) of Regulation 7 of the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the Union Public Service Commission has approved the Select Lists of 2003 and 2004 for Andhra Pradesh containing the names of the following State Civil Service officers of the State of Andhra Pradesh prepared by the Selection Committee in its meeting held on 29th October, 2004, towards filling up one (1) vacancy each during 2003 and 2004, in the Indian Administrative Service, Andhra Pradesh Cadre :—

Select List 2003

Sl. No.	Name of the Officer	Date of Birth
1.	Shri M. Jagan Mohan	04.08.1958

Select List 2004

1.	Shri A. Dinakar Babu	19.12.1959
----	----------------------	------------

The inclusion of the names of the above officers in the Select Lists are subject to the outcome of Special Leave Appeal (C) Nos. 6515-6517 of 2004 filed before the Hon'ble Supreme Court and the Writ Petition No. 10604/2004 filed before the Hon'ble High Court of Andhra Pradesh against the order dated 04.11.2003 of the A. P. Administrative Tribunal.

JAGAN LAL, Under Secy.

No. 14015/01/2004-AIS (I)-B—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) Rule 8 of the Indian Administrative Service (Recruitment) rules, 1954 read with sub-regulation (1) of Regulation 9 of the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955 and Rule 3 of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to appoint Shri M. Jagan Mohan and Shri A. Dinakar Babu, members of the State Civil Service of Andhra Pradesh to the Indian Administrative Service for the years 2003 and 2004 respectively, on probation with immediate effect until further orders and to allocate them to the Cadre of Andhra Pradesh under sub-rule (1) of Rule 5 of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954.

2. The appointment of the above officers in the Select Lists are subject to the outcome of Special Leave Appeal (C) Nos. 6515-6517 of 2004 filed before the Hon'ble Supreme Court and the Writ Petition No. 10604/2004 filed before the Hon'ble High Court of Andhra Pradesh against the order dated 04.11.2003 of the A. P. Administrative Tribunal.

JAGAN LAL, Under Secy.

New Delhi, the 7th January 2005

No. 14013/05/2003-AIS-III—In exercise of the powers conferred by rule-3A of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm, in the Indian Administrative Service, the following members of the Indian Administrative Service borne on the State Cadre of Haryana, with effect from the dates shown against them.

Sl. No.	Name	Batch	Date of Confirmation
1	2	3	4
1.	Sh. Balraj Singh	1990	27.12.2000
2.	Sh. Anand Sharma	1990	27.12.2000

1	2	3	4
3.	Smt. Satwanti Ahlawat	1990	27.12.2000
4.	Sh. Sant Kumar	1990	27.12.2000
5.	Sh. H. P. Chaudhary	1990	27.12.2000
6.	Sh. S. P. Gupta	1990	27.12.2000
7.	Sh. R. B. Langayan	1990	27.12.2000
8.	Sh. H. S. Malik	1991	20.01.2001
9.	Sh. Phateh Singh	1991	27.12.2000
10.	Sh. D. D. Gautam	1991	27.12.2000
11.	Sh. M. P. Bansal	1992	28.12.2000
12.	Sh. Pushp Raj Singh	1992	28.12.2000
13.	Sh. D. P. S. Nagal	1992	28.12.2000
14.	Sh. Mohinder Kumar	1992	28.12.2000
15.	Sh. A. K. Yadav	1993	28.12.2000
16.	Shri T. K. Sharma	1993	28.12.2000
17.	Sh. B. S. Malik	1993	28.10.2000
18.	Sh. Balwan Singh	1993	28.10.2000

G. C. PANDEY, Under Secy.

MINISTRY OF FINANCE

(DEPARTMENT OF REVENUE)

New Delhi, the 30th November 2004

INDIAN CUSTOMS & CENTRAL EXCISE ESTABLISHMENTS

No. 30 of 2004 (F. No. A-39012/5/2004-Ad. II.)—The President is pleased to accept the technical resignation rendered by Shri Prashant Kumar, ACCE-Vadodra-II from Indian Customs and Central Excise Service, Group "A" with effect from 3.9.2004 under Rule 26(2) of CCS (Pension) Rules, 1972 and enable him to join IAS.

K. KIPGEN, Under Secy.

No. 31 of 2004 (F. No. A-38012/31/2004-AD.II.)—The President is pleased to accept the notice for Voluntary retirement of Shri J. M. Dabholkar, Asst. Commissioner of Central Excise-Daman Commissionerate from Indian Revenue Service (Customs and Central Excise) w.e.f. 31.12.2004 under Rule 48 of CCS (Pension) Rules.

K. KIPGEN, Under Secy.

The 10th December 2004

No. 32 of 2004 (F. No. A-38012/28/2004-AD.II.)—The President is pleased to accept the notice for Voluntary retirement of Shri R. M. Fartade, Deputy Commissioner of Central Excise-Pune-III from Indian Revenue Service

(Customs and Central Excise) w.e.f. 22.12.2004 under rule 48 of CCS (Pension) Rules read with FR 56 K.

K. KIPGEN, Under Secy.

The 13th December 2004

No. 34 of 2004 (F. No. A-39012/1/2001-AD.II.)—The President is pleased to accept the resignation from Government service tendered by Shri M. K. Sherwani, Deputy Director, Directorate of Revenue Intelligence, Delhi w.e.f. 13.12.2004.

K. KIPGEN, Under Secy.

(DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS)

New Delhi, the 27th December 2004

F. No. 2/6/03-CY. III.—On attaining the age of superannuation, Shri M. L. Biswas, Chief Control Officer, Currency Note Press, Nashik Road relinquished the charge of the post of Chief Control Officer, Currency Note Press on 30.11.04 (A/N). His name stands deleted from the rolls of Currency Note Press with effect from that date.

A. K. KHANNA, Under Secy.

F. No. 3/10/04-CY. (III).—The President is pleased to appoint Shri S. B. Rai, Works Engineer (Electrical) in the Common Cadre of India Security Press/Currency Note Press as Assistant Chief Engineer (Electrical) in the pay scale of Rs. 8,000-275-13,500/- (Group 'A' Gazetted) as per recommendation made by DPC in its meeting held at UPSC on 20.11.02. On his promotion the seniority of Shri Rai shall be fixed in the grade of Assistant Chief Engineer (Electrical) w.e.f. the date of DPC i.e. 20.11.02. As per the panel drawn by the DPC his name shall figure above Shri S. S. Koranne. Shri Rai shall, however draw the pay of Assistant Chief Engineer (Electrical) from the date he actually takes over the charge of the post of ACE (Electrical).

A. K. KHANNA, Under Secy.

New Delhi, the 5th January 2005

F. No. 4(2)/2004-CY. I (SPM)—On attaining the age of superannuation, Shri Basant Lal Sharma, Assistant Manager (Mechanical), Security Paper Mill, Hoshangabad, relinquished the charge of the post of Assistant Manager (Mechanical), Security Paper Mill, Hoshangabad on 31.10.2004 (A/N). His name stands deleted from the rolls of Security Paper Mill with effect from that date.

P. K. SHARMA, Under Secy.

(DEPARTMENT OF EXPENDITURE)

New Delhi, the 10th January 2005

No. A-11019/8/2004-EG.—The President has been pleased to appoint Shri Narayan Chattopadhyay of Indian

Audit and Accounts Department, as Welfare Officer in the office of the Pr. Director of Audit, Central, Kolkata in the scale of Rs. 10,000-325-15,200/- with effect from 30.7.2004 (F.N.) until further orders.

MAHENDRA KUMAR, Dy. Secy.

No. A-11019/8/2004-EG.—The President has been pleased to appoint Shri Ramamoorthy Satyanathan of Indian Audit and Accounts Department, as Welfare Officer in the office of the Pr. Accountant General (Audit-I), Tamilnadu and Pondicherry, Chennai in the scale of Rs. 10,000-325-15,200 with effect from 26.7.2004 (F.N.) until further orders.

MAHENDRA KUMAR, Dy. Secy.

No. A-11019/8/2004-EG.—The President has been pleased to appoint Shri Cheeli Daniel Babu. Prem Kumar of Indian Audit and Accounts Department, as Welfare Officer in the office of the Accountant General (A&E), Andhra Pradesh, Hyderabad in the scale of Rs. 10,000-325-15,200 with effect from 30.7.2004 (F.N.) until further orders.

MAHENDRA KUMAR, Dy Secy.

No. A-11019/8/2004-EG.—The President has been pleased to appoint Shri Kiritkumar Narbheram Parkeh of Indian Audit and Accounts Department, as Welfare Officer in the office of the Accountant General (A&E), Gujarat, Rajkot in the scale of Rs. 10,000-325-15,200 with effect from 29.7.2004(A.N.) until further orders.

MAHENDRA KUMAR, Dy. Secy.

No. A-11019/8/2004-EG.—The President has been pleased to appoint Shri Devendra Kumar Mathur of Indian Audit and Accounts Department, as Welfare Officer in the office of the Accountant General (A&E), Rajasthan, Jaipur in the scale of Rs. 10,000-325-15,200 with effect from 29.7.2004 (F.N.) until further orders.

MAHENDRA KUMAR, Dy. Secy.

MINISTRY OF COAL

New Delhi, the 5th January 2005

No. 12012/4/2004-Admn.—The President is pleased to appoint Shri Bhaskar Chatterjee, son of Shri Biswanath Chatterjee as Assistant PS to the Minister of Coal (Shri Shibu Soren) in the pay scale of Rs. 6500-200-10,500/- with effect from 2.12.2004(F.N.). His appointment will be co-terminus with tenure of the Minister or till the Minister requires his services, whichever is earlier.

PARVATI KAUTIA, Under Secy.

No. A-32015/1/98-Admn.—In continuation of this Ministry's Notification of even number dated 27th September, 2004, the President is pleased to appoint the following Stenographers Grade 'C' (PAs) to the post of Private Secretary in the pay scale of Rs. 6500-200-10500/- with effect from 1.1.2005 to 31.3.2005 or till regular candidate becomes available, whichever is earlier.

1. Smt. Tasnim T. Kardar
2. Smt. Vibha Atri

The above mentioned promotion is being made on purely ad-hoc basis and the ad-hoc promotion will not confer on them any right or regular promotion. The government reserve the right to cancel at any time the ad-hoc promotion and revert them to the post of Stenographer Grade 'C'.

PARVATI KAUTIA, Under Secy.

MINISTRY OF STEEL

New Delhi, the 8th December 2004

No. 2(6)/2004-Estt.(.)—The President is pleased to appoint Sh. Vir Vijoy Singh as Assistant Private Secretary to Minister of Chemicals & Fertilizers and Minister of Steel (Sh. Ram Vilas Paswan) w.e.f. 27.5.2004 (FN) till his services are required by the Minister or till the Minister relinquishes the office of Minister of Chemicals & Fertilizers and Minister of Steel, whichever is the earliest.

Shri Vir Vijoy Singh does not belong to any Ministry/ Department of Government of India.

BABOO RAM, Under Secy.

The 14th December 2004

No. 11(36)/2002-Estt.(.)—The President is pleased to appoint Shri H.C. Bhatt, presently working as Stenographer Grade 'C' in the CSSS Cadre of the Ministry of Steel to officiate as Private Secretary (Grade 'A' & 'B' merged) in the same service and cadre on an adhoc basis w.e.f. 14.6.2004 for 180 days or until further orders.

2. The promotion of Shri Bhatt, to the post of Private Secretary is purely on adhoc basis and he will not have any claim for seniority or regular promotion consequent on this ad-hoc appointment.

BABOO RAM, Under Secy.

No. 5(13)/95-Estt.—The President is pleased to appoint Shri B.D. Ghosh, Deputy Industrial Adviser in the main office at Kolkata of the Organization of the Development Commissioner for Iron and Steel under the Ministry of Steel to officiate on an ad hoc basis as Joint Industrial Adviser in the same office with effect from the forenoon of the 13th December, 2004 till 27.5.2005 or till a regular incumbent becomes available for appointment or until further orders whichever is earlier.

The ad hoc appointment will not confer any right on Shri Ghosh to claim regularization of the same or claim seniority in the grade for any purpose. Government reserves the right to terminate Shri Ghosh's ad hoc appointment without assigning any reasons or giving notice.

BABOO RAM, Under Secy.

The 17th December 2004

No. 51(3)/95-Estt.—On being nominated by the Department of Official Language for his appointment as Director (Official Language) in the Ministry of Environment and Forests, Shri Jai Narain, an officer of the CSOLS, currently working as Director (Official Language), Ministry of Steel is relieved of his duties with effect from the forenoon of the 17th December, 2004. His services will accordingly stand placed at the disposal of the Ministry of Environment and Forests from the same date.

BABOO RAM, Under Secy.

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(DEPARTMENT OF CONSUMER AFFAIRS)

New Delhi, the 4th January 2005

No. A. 43011/2/2001-Estt.—The President is pleased to extend the appointment of Shri Pawan Kumar, a regular Principal Private Secretary as Senior Principal Private Secretary in the scale of pay of Rs. 12000-375-16500 on ad hoc basis for a further period of six months with effect from 1st January, 2005 to 30th June, 2005 or till the regular Sr. Principal Private Secretary becomes available, or till further orders, whichever is earlier.

2. The above ad hoc appointment would not bestow on him any right to claim regular appointment, seniority or confirmation etc. in the grade of Senior Principal Private Secretary.

3. This issues with the approval of the Department of Personnel & Training vide their O.M.No. 5/15/2003-CS.II dated 23rd December, 2004.

S.K. NAYAK, Under Secy.

(DEPARTMENT OF FOOD & PUBLIC DISTRIBUTION)

New Delhi, the 13th December 2004

File No. A-38012/3/2004-SRA—On attaining the age of superannuation, Sh. K. Chellappa, Deputy Director (S&R) of this Department who belongs to Group 'A' General Central Services, has retired from Government Service with effect from the afternoon of 30th November, 2004.

MITTER SAIN, Under Secy.

No. A-38012/8/2004-SRA—Sh. Narendra Prakash, Asstt. Director (S&R) of this Department who belongs to Group 'A' General Central Services, has voluntarily retired from

Government Service under Rule 48 A of the CCS (Pension) Rules, 1972 with effect from the 1.12.2004 (F/N).

MITTER SAIN, Under Secy.

MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY (DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY)

New Delhi-110016, the 27th December 2004

No. A. 19014/03/2002-Admn.I(A)—The President is pleased to appoint Dr. Raghavendra Ashrit in the substantive capacity in the post of Scientist 'C' with effect from 27.03.2004 and until further orders.

T.N. DWIVEDI, Under Secy.

New Delhi-110016, the 30th December 2004

No. SM/01/042/2001—The President is pleased to appoint the following Officer as Deputy Superintending Surveyor, Group 'A' Service in the pay scale of Rs. 8,000-275-13,500 w.e.f. the date mentioned against his name and until further orders :—

1. Shri Mahesh Ravindranathan—02.12.2004 (FN)

B.K. RAICHANDANI, Under Secy.

No. SM/01/042/2001.—The President is pleased to appoint the following Officer as Deputy Superintending Surveyor, Group 'A' Service in the Pay Scale of Rs. 8,000-275-13,500 w.e.f. the date mentioned against his name and until further orders :—

1. Shri T. Prasanth Mallik—10.11.2004 (FN)

B.K. RAICHANDANI, Under Secy.

New Delhi-110016, the 30th December 2004

No. SM/01/052/2003—The President is pleased to appoint the following officer holding the post of Superintending Surveyor in Survey of India to the post of Director in the pay scale of Rs. 14300-400-18300 in that Department from the date noted against his name, until further orders :—

Shri Ram Prasad, 24.06.2004 (FN)

A. J. KURIAN, Dir.

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

New Delhi, the 6th January 2005

No. A-12012/1/2005-P. II—The President is pleased to appoint Shri Jai Narain, as Director (OL) in the Ministry of Environment and Forests w.e.f. 17.12.2004 (FN), in the pay scale of Rs. 14300-400-18300/- until further orders.

ZAFRUL ISLAM, Under Secy.

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE

(DEPARTMENT OF HEALTH)

New Delhi-110011, the 3rd January 2005

No. A-12025/11/2002-CHS. I—On the recommendation of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Meenakshi Salhan to the Medical Officers' Grade of the Central Health Service in the scale of pay of Rs. 8000—13500 in a temporary capacity with effect from afternoon of the 5th March, 2003 until further orders. Dr. Meenakshi Salhan is posted as Medical Officer under Central Government Health Scheme, Delhi.

The President is also pleased to accept the resignation of Dr. Meenakshi Salhan from the post of Medical Officer of Central Health Service under Central Government Health Scheme, Delhi with effect from the afternoon of the 30th June, 2003.

JAGDISH KUMAR, Under Secy.

New Delhi, the 27th December 2004

No. A-22012/1/2003-Estt. I—Consequent on her appointment as Secretary, Ministry of Tribal Affairs vide Department of Personnel & Training's Order No. 13/18/2004-EO (SM. I) dated the 20th December, 2004, Smt. P. Jyoti Rao, IAS (UL: 70), Additional Secretary (H) in the Department of Health, Ministry of Health & Family Welfare is hereby relieved of her duties with effect from the forenoon of 27th December, 2004 to assume charge of her new assignment.

A. K. DEORI, Under Secy.

DIRECTORATE GENERAL OF HEALTH SERVICES

New Delhi, the 16th August 2004

No. A-38012/1/2004-Admn.-I—Shri Gian Inder, Sr. Architect retired from Government Service on attaining the age of superannuation with effect from 31.07.2004.

KARNAIL SINGH, Dy. Director Admn. (KS)

MINISTRY OF AGRICULTURE

(DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION)

New Delhi, the 05th January 2005

No. A-12023/6/2004-E.V.—The President is pleased to appoint Shri L. K. Tewari, IFS (OR: 86), as Additional Commissioner (Forestry) in the pay scale of Rs. 16400-450-20000/- in RFS Division of Department of Agriculture & Cooperation on deputation basis with effect from the forenoon of 20th December 2004, for a period not exceeding five years.

K. D. UPRETI, Under Secy.

The 10th January 2005

No. A-32011/2/2002-E.V.—The President is pleased to appoint Shri H. P. Singh, Senior Technical Assistant (Law) as Law Officer (Fertilizer) in the pay scale of Rs. 8000—13500 in the Department of Agriculture & Cooperation purely on ad hoc basis with effect from 24.12.2004 (FN), for a period of six months or until further orders, whichever is earlier.

K. D. UPRETI, Under Secy.

(DIRECTORATE OF MARKETING & INSPECTION)

Faridabad, the 08th December 2004

No. A-31014/1/2000-A. I.—The Agricultural Marketing Adviser to the Government of India has appointed the following officers substantively to the post of Marketing Officer (Group-I) in the Directorate of Marketing and Inspection with effect from the date indicated against each:—

Sl. No.	Name of the Officer	Date of confirmation
1	2	3
	S/Shri	
1.	Ajay Kumar Gupta	09.11.2002
2.	Prakash Babnavar	07.12.2002
3.	Sanjay Mehra	18.10.2002
4.	Dr. Shailash Kumar Mishra	10.11.2002
5.	Sanjay Kumar Kaul	01.11.2002
6.	Bhavesh Kumar Joshi	09.11.2002
7.	Manish Kumar Choudhary	31.10.2002
8.	Dr. Surendra Kumar Singh	01.11.2002
9.	Satbir Singh Sagoo	20.10.2002
10.	Dr. Saiyed Iqbal Hussain	23.10.2002
11.	Dr. Uma Shankar Shukla	19.10.2002
12.	Dr. Jaiveer Singh	16.10.2002
13.	Tapash Bhattacharjee	06.11.2002
14.	Prasad Chakraborty	01.11.2002
15.	Dr. Gajendra Singh	08.12.2002
16.	Anuj Kumar Upadhaya	31.10.2002
17.	Dr. Naher Pal Singh	09.11.2002
18.	Dr. D. M. Govinda Reddy	09.11.2002
19.	Melvin Roy Pilli	16.11.2002
20.	Achchhey Lal Maurya	09.11.2002
21.	Madhur Prakash Verma	09.11.2002
22.	Manoj Kumar	06.11.2002
23.	Dr. Raja Ram Saini	06.11.2002
24.	Dayanand Venkatraman Naik	09.11.2002

1	2	3
	S/Shri	
25.	Dr. Vitendra Singh Yadav	16.10.2002
26.	Bijaya Kumar Prusty	01.11.2002
27.	K. Ganesan	16.11.2002
28.	Dinesh Kumar	23.10.2002
29.	Subrata Saha	19.12.2002
30.	Dr. Anil Kumar Gehlot	23.10.2002
31.	Akshay Yakhub	23.10.2002

A. K. CHOPRA, Under Secy.

**MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT
(DEPARTMENT OF LAND RESOURCES)**

New Delhi, the 3rd January 2005

No. A-12026/2/2004-Admn.—The President is pleased to appoint Smt. Archana Singh, IFS (AGMUT: 86) as Assistant Inspector General of Forests in the scale of pay of Rs. 14300-400-18300 in the Department of Land Resources, Ministry of Rural Development on deputation basis with effect from the forenoon of 3rd January, 2005 for a period of 4 years or until further orders, whichever is earlier.

G. B. UPADHYAY, Under Secy.

**MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
(DEPARTMENT OF SECONDARY & HIGHER EDUCATION)**

New Delhi, the 20th December 2004

No. A-32011/2/2004-E, I.—The President is pleased to appoint Shri S. C. Gupta, Assistant Education Officer (Statistics) in the Ministry of Human Resource Development (Department of Secondary & Higher Education) as Assistant Director (Planning) in the scale of pay of Rs. 8,000-275-13,500/- with effect from the forenoon of 15th December, 2004 until further orders.

K. K. MISHRA, Under Secy.

MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS

New Delhi, the 24th December 2004

No. A-11013/1/2004-Admn.—The President is pleased to appoint Shri Amiya Chandra, Indian Trade Service (1989) as Private Secretary to the Hon'ble Minister of Youth Affairs & Sports (Shri Sunil Dutt) with effect from the forenoon of 21st December, 2004 for a period of five years or on coterminus basis or till he ceases to function as Private Secretary to the Hon'ble Minister or until further orders, whichever event occurs the earliest.

S. S. PANESAR, Under Secy.

MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS

New Delhi, the 04th January 2005

No. A-19011/8/2004-Estt. (TA)—The President is pleased to appoint Smt. P. Jyoti Rao, IAS (UL: 70) as Secretary in

the Ministry of Tribal Affairs with effect from the forenoon of 27th December 2004.

S. K. GUPTA, Dy. Secy.

**MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND
EMPOWERMENT**

New Delhi-110001, the 28th December 2004

No. A-19011/1/2000-Estt.—On completion of her tenure of Central Deputation, the President is pleased to relieve Smt. Rajwant Sandhu, IAS (HP: 75), Joint Secretary of her duties in the Ministry of Social Justice and Empowerment w.e.f. the afternoon of 04.01.2005.

2. Smt. Sandhu is further granted Earned Leave for a period of 59 days w.e.f. 05.01.2005 till 04.03.2005 (Suffixing 5th and 6th March 2005). After the expiry of the above said leave, the services of Smt. Sandhu will stand placed back at the disposal of her parent cadre, i.e. the Government of Himachal Pradesh.

L. C. MAHRRA, Under Secy.

New Delhi, the 4th January 2005

No. E-13015/1/2003-Hindi—In pursuance of Sub-rule 4 of Rule 10 of the Official Language (use for official purposes of the Union) Rules, 1976, the Central Government hereby notifies the National Backward Classes Finance and Development Corporation, New Delhi whose 80% of staff has acquired working knowledge of Hindi.

P. K. JAJORIA, Director (Admn.)

**MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND
INFORMATION TECHNOLOGY
(DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY)**

NATIONAL INFORMATICS CENTRE

New Delhi-110003, the 13th December 2004

No. NICHPP/P 1396 (1) A/88/10752—The President is pleased to accept the resignation of Sh. Sunil Sharma (Emp. Code No. 1396), NIC Himachal Pradesh State Unit, Shimla from the post of Scientific Officer/Engineer-SB with effect from the afternoon of 19th April, 1999 and he is relieved of his duties from the same day.

P. S. PILLAI, Dy. Director (Adm. II)

The 6th January 2005

No. 4922/NIC/2004-Adm.II.—The Director General, NIC in exercise of the powers conferred under Rule 15(4) of the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965 removes Sh. Deepak Jain, Scientific Officer/Engineer-SB (Emp. Code No. 4922) from service in the National Informatics Centre, Department of Information Technology w.e.f. 15.09.2004.

P. S. PILLAI, Dy. Dir. (P & E-II)

MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 4th January 2005

No. ERB-I/2003/3/3.—Shri. Rajesh Kumar, Assistant, Railway Board, has been promoted to officiate as Section Officer, Railway Board, on ad-hoc basis, in the scale of Rs. 6,500—10,500/- (RSRP) with effect from 11.10.2004 (F.N.).

V. N. MATHUR, Secy., Railway Board

The 5th January 2005

No. E(GP)2003/1/57.—The President is pleased to approve of the undermentioned 13 Group 'B' officers of Accounts Department of Indian Railways, being appointed substantively to the Junior Scale of the Indian Railway Accounts Service (IRAS) w.e.f. 02.11.2004, on the Railway mentioned.

PANEL FOR THE YEAR 2004-05

Sl. No. Name of the Officer

CENTRAL RAILWAY

S/Shri

1. D. K. Darawade
2. G. Hanumanth Rao

EASTERN RAILWAY

1. J. K. Sengupta

NORTHERN RAILWAY

1. Ramesh Lal—Belongs to DMW
2. S. K. Azad (SE)

NORTH EASTERN RAILWAY

1. B. P. Thakur—Belongs to DLW
2. P. C. Lakra (ST)

SOUTHERN RAILWAY

1. P. Nesamony

SOUTH CENTRAL RAILWAY

1. V. A. Padmanabham

SOUTH EASTERN RAILWAY

1. A. K. Pradhan
2. B. B. Bera (SC)

WESTERN RAILWAY

1. K. K. Raman
2. H. B. Chawda

V. N. MATHUR, Secy., Railway Board

MINISTRY OF POWER

New Delhi, the 6th January 2005

No. 01/2005. (File No. A-38012/1/2004-Admn.I.)—In exercise of the powers conferred by Sub-section (4) of Section 70 of the electricity Act, 2003 (36 of 2003), the President is pleased to appoint the following officers to the post of Member in the Central Electricity Authority in the scale of pay of Rs. 22,400—24,500/- with the ex-officio status of Additional Secretary to the Government of India, on deputation basis for a period of five years with effect from the dates mentioned against their names, till the date of superannuation, or until further orders whichever is earlier :—

Sl. No.	Name of the Officer	Service to which belongs	Name of Post	Date of Appointment
1.	Sh. Shailendra Pandey	IA&AS	Member (Economics & Commercial)	8.12.2004(FN)
2.	Sh. Gurdial Singh	CPE (Group A) Service	Member (Hydro)	2.12.2004 (FN)
3.	Sh. V Ramakrishna	CPE (Group A) Service	Member (Power System)	2.12.2004(FN)

R. C. ARORA, Under Secy.

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

New Delhi, the 17th December 2004

No. A-22012/1/2004-Admn-I—The President is pleased to appoint Shri Sanjay Kumar Sah, IRS (IT: 90) as Director in the Ministry of Urban Development in the scale of pay of Rs. 14300-400-18300 with effect from 15.12.2004 (FN) for a period of 5 years or until further orders, whichever event takes place earlier.

R. K. SINHA, Dy. Secy.

MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT

DIRECTORATE GENERAL OF EMPLOYMENT & TRAINING

New Delhi, the 31st December 2004

No. DGE&T-A-19013/3/2001-Admn. II—The President is pleased to appoint Shri K. K. Mittal, IAS (AM: 83) as Director General (Employment and Training) and ex-officio Joint Secretary in the Ministry of Labour and Employment, Directorate General of Employment and Training with effect from the forenoon of 21st September 2004 for the balance period of his normal tenure of five years i.e. 20.06.2006 or until further orders, whichever event takes place earlier.

R. K. AHLUWALIA, Under Secy.

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2005।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND
PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2005.